दैनिक

लखनऊ से प्रकाशित एवं उ.प्र., बिहार ,झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में प्रसारित

RNI-UPHIN/2014/58471

अमन लेखनी



हेल्दी खाना....

गजब के हैं ये प्रवासी पक्षी ...

वर्ष : 09 | अंक : 308 | लखनऊ, 14 अक्टूबर , शनिवार 2023 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 2.00 रुपए

मौसम

अधिकतम तापमान 33.c

न्यूनतम तापमान 27.c

बाजार

सोना 5510/ g

चांदी 73.50/ g

सेंसेक्स 64,948.66

19,310.15

संक्षिप्त समाचार

मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका उचित अदालत में पेश करने का निर्देश

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत की अर्जी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया जिससे मुख्य न्यायाधीश एमपी-एमएलए के आपराधिक मामले देखने वाली उचित अदालत के समक्ष नामित कर सकें। यह जमानत याचिका मऊ जिले के राम सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दायर की गई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब प्रदेश के अपर महाधिवक्ता की ओर से इस मामले के न्यायिक क्षेत्र के पहलू को लेकर यह कहते हुए आपत्ति की गई कि चूंकि यह मामला एक पूर्व विधायक से जुड़ा है, इस पर सांसद-विधायक के मामले देखने वाली अदालत द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। मुख्तार के वकील के मुताबिक, वर्ष 2009 में मऊ जिले में मुन्ना सिंह नाम के एक ठेकेदार को मार दिया गया था और हत्या के इस मामले में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति गवाह था। वर्ष 2010 में राम सिंह की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद, मऊ जिले के दक्षिण टोला पुलिस थाना में एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि हत्या के इस मामले में मुख्तार साजिशकर्ता था। मौजूदा जमानत याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हत्या के इस मामले में मुख्य आरोपी को पहली ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए कथित तौर पर साजिशकर्ता की भूमिका निभाने वाले मुख्तार भी जमानत पाने के पात्र हैं। दूसरी बात, वह इस मामले में करीब 14 साल से न्यायिक हिरासत में हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुताबिक, वह भी जमानत पाने के हकदार हैं।

अमेठी में कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री योगी

स्मृति ईरानी ने भी बोला हमला।

सांसद बोलीं – जो काम 40 साल में नहीं हुए, वो 4 साल में हो गए और

यहां के पुराने सांसद दक्षिण चले।

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। अमेठी में आज संसद खेलकूद प्रतियोगिता -2023 के समापन समारोह में भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई।कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े और प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ₹आज का ये सम्मान अमेठी का सम्मान ही नहीं पूरे भारत के सम्मान का समारोह है। इतने भव्य आयोजन के लिए सांसद स्मृति ईरानी को मैं बधाई देता हूं। इस प्रकार के आयोजन आज से पहले सिर्फ सपना हुआ करते थे। भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन चीन में हुआ है ।जहां एशियन गेम में 107 पदक भारत ने जीते हैं। गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को 3 करोड़ का सम्मान मिल रहा है। उन्हें डिप्टी एसपी का पद भी मिलेगा। 500 खिलाड़ियों को अभी तक नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है।₹

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए मुख्य मंत्री योगी ने कहा, 2019 के पहले सांसद यहां से चुनकर जाते थे लेकिन उनके दर्शन नहीं होते थे। आज अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज 699 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। डबल इंजन की सरकार है। अमेठी में विकास के लिए जितने पैसे की आवश्यक्ता पड़ेगी उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद के नाम पर पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ₹आज का ये सम्मान अमेठी का सम्मान ही नहीं पूरे भारत के सम्मान का समारोह है।इतने भव्य आयोजन के लिए सांसद स्मृति ईरानी को मैं बधाई देता हूं। इस प्रकार के आयोजन आज से पहले सिर्फ सपना हुआ करते थे। भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन चीन में हुआ है ।जहां एशियन गेम में 107 पदक भारत ने जीते हैं। गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को 3 करोड़ का सम्मान मिल रहा है। उन्हें डिप्टी एसपी का पद भी मिलेगा। 500 खिलाड़ियों को अभी तक नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है।

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए मुख्य मंत्री योगी ने कहा, 2019 के पहले सांसद यहां से चुनकर जाते थे लेकिन उनके दर्शन नहीं होते थे। आज अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज 699 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। डबल इंजन की सरकार है। अमेठी में विकास के लिए जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद के नाम पर पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा- इस लोकसभा से चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई लेकिन अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। पिपरी गांव में नदी के कटान से सैकड़ों किसानों की जमीन बह गई लेकिन न साइकिल वाले काम आए और न ही हाथ वाले ही काम आए। इस अवसर पर सभा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भी संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कहा, मुख्यमंत्री ने वहां बांध बनवाया। अमेठी दिनों तक अंधेरे में रहा लेकिन आज 1 लाख 23 हजार घरों को बिजली मिल रही है। मनरेगा में आज 2 लाख से अधिक हाथों को काम मिला है। यहां पर पहले सांसद का चेहरा 5 साल में सिर्फ एक दो बार ही दिखता था। जो काम 40 साल में नहीं हुए वो 4 साल में हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, गांधी खानदान पर हमला बोलते हुए कहा कि एक खानदान ने सरकार से जमीन मेडिकल कॉलेज बनवाने के नाम पर ली। लेकिन वहां अपना गेस्ट हाउस बनवा लिया। उन्होंने बिना राहुल गांधी का नाम लिए तंज कसते हुए कहा अमेठी अब अड-203 के नाम से जाना जाता है। गायब हुए सांसद के लिए नहीं जाना जाता। अब वो दक्षिण में चले गए और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि कहें कि हम अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 699 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

पीएम मोदी ने वर्चुअली अपना संबोधन दिया

पीएम मोदी ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में पदकों का शतक लगाया है। इन आयोजनों के बीच अमेठी के खिलाड़ियों ने भी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सांसद खेल - कूद प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं।पीएम मोदी ने कहा कि बीते 25 दिनों में आपको जो अनुभव मिला है वो आपके खेल करियर की बहुत बड़ी पूंजी है । मैं आज हर उस व्यक्ति को भी बधाई देता हूं, जिसने शिक्षक, निरीक्षक और स्कूल एवं कॉलेज के प्रतिनिधि की भूमिका में इस महाअभियान से जुड़कर इन युवा खिलाड़ियों को समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया है।

'इजरायल के झंडे से जनता को ठगा जा रहा है', सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज

अमन लेखनी समाचार

उत्तर प्रदेश । इजरायल और हमास की जंग जारी है और इजरायल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी की जा रही है। इसी बीच भारत सहित पश्चिमी मुल्कों की तरफ से लगातार इजरायल को समर्थन मिल रहा है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर बीजेपी पर तंज कसा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भाजपा का सफाया करने जा रही है। आज देश में महंगाई की बात नहीं हो रही है बस आज तो इजरायल का झंडा लगा दो उसी को दिखाकर जनता को ठगा जा रहा है। अखिलेश यादव ने इजरायल फिलिस्तीन लड़ाई पर कहा कि ₹हम किसी भी लड़ाई के खिलाफ हैं अगर किसी की जान जाती है हम उसके विरोध में हैं। हम किसी भी आतंकवादी के खिलाफ है। हम किसी भी आतंकवाद को कभी समर्थन नहीं देते। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ₹बड़े-बड़े निवेश, उद्योगपति आए थे। आज वह निवेश जमीन पर उतरे कहीं कारखाने, उद्योग लगे हों तो बताएं।

युद्ध से किसी का भला नहीं, आतंकवाद दुनिया के सामने बड़ी चुनौती - पीएम मोदी

अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 देशों की संसद के स्पीकर और संसदीय प्रतिनिधिमंडल के शिखर सम्मेलन में कहा कि यह दुनिया भर की विभिन्न संसदीय परंपराओं का एक अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि जी20 की अध्यक्षता ने पूरे वर्ष भारत में उल्लेखनीय गतिविधियां सुनिश्चित कीं, चंद्रमा की सतह पर उतरने में भारत को मिली सलफता ने जशन को और बढ़ा दिया। मोदी ने कहा कि हमारे पास बहस, विचार-विमर्श की हजारों वर्षों की विरासत है, हमारे 5,000 वर्ष से भी पुराने कुछ ग्रंथों में ऐसी प्रणालियों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग-अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। आप सभी प्रतिनिधि अलग-अलग संसदीय कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोगों में, उसके लोगों की आकांक्षाओं में निहित होती है! आज ये शिखर सम्मेलन भारत के लोगों की शक्ति का जश्न मनाने का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई हैं।भारत में हम लोग आम चुनाव को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी मिलने के बाद से अब तक भारत में 17 आम चुनाव और 300 से अधिक राज्य विधानसभा चुनाव हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 के आम चुनाव में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का आम चुनाव मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अभ्यास थी। इसमें 60 करोड़ से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया।

मोदी ने कहा कि भारत चुनावों के दौरान पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए 25 वर्षों से अधिक समय से ईवीएम का उपयोग कर रहा है। 2024 में आम चुनाव के दौरान करीब 100 करोड़ यानी 1 अरब मतदाता वोट डालेंगे। मैं सभी प्रतिनिधियों को अगले आम चुनाव देखने के लिए भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। इजरायल-हमास युद्ध के बीच मोदी ने कहा कि यह सबके कल्याण और विकास का वक्त है। आतंकवाद दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह शांति और भाईचारे का समया है। उन्होंने कहा कि हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा।

कैलाश विजयवर्गीय का राहुल और प्रियंका पर बड़ा वार

अमन लेखनी समाचार

मध्य प्रदेश । मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां कर रही है। राजनीतिक दलों का एक-दूसरे पर प्रहार भी जारी है। इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के साथ-साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो झूठ के अलावा वे कुछ भी नहीं हैं। पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने किसानों को धोखा दिया। कांग्रेस अभी भी धोखा देने का काम कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि कल उन्होंने वन अधिकार के पट्टों को लेकर बोला, वन अधिकार के पट्टे सर्वाधिक भाजपा सरकार ने दिए। वनों में आदिवासियों के अधिकार को भाजपा ने सुरक्षित किया है। कांग्रेस जबरदस्ती झूठ बोलकर भाजपा पर आरोप लगा रही है। दरअसल, प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की परंपरा देखिए- वनाधिकार कानून आपके लिए लाया गया ताकि वनों पर पहला अधिकार आपका हो, क्योंकि यही आपकी संस्कृति है। इसे संरक्षित और मजबूत करने के लिए आपको वन अधिकार कानून दिया गया। यहां जो भी राजनीतिक नेता आता है वह तीन शब्दों का प्रयोग करता है- जल, जंगल, जमीन। लेकिन इसके अंतर्निहित अर्थ को समझना जरूरी है। क्या नेता सार्थक बात कर रहे हैं या ये आपके सामने आया एक 'जुमला' है। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस पार्टी की परंपरा और सिद्धांत रहा है। हम चाहते हैं कि देश की, राज्य की, आपके जिले की संपत्ति आपके हाथ में हो। हम चाहते हैं कि आप सशक्त बनें, आपको अपनी शक्ति मिले। जब आप विभिन्न पार्टियों के चुनावी भाषण सुनते हैं तो एक बात सोचते हैं - क्या वे आपकी सत्ता आपके हाथों में दे देंगे? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जितने भी अधिकार कांग्रेस ने लोगों को दिए और उनकी मजबूती के लिए जो-जो काम किए भाजपा ने एक-एक कर सारे अधिकार छीन लिए। आज सरपंचों के अधिकारों में कटौती है, मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों की जमीने छीनी जा रही हैं। फसल के सही दाम नहीं मिलते। विरोध करने पर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार खत्म कर दिया।

महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चिंता का विषय

अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और संविदा पर नियुक्ति को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था एक बड़ी चिंता का विषय है। राज्य सरकार को इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में उचित कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा रिक्त सरकारी पदों को संविदा नियुक्ति के माध्यम से भरने का है जो सही नहीं है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पवार ने दावा किया कि इस साल 1 जनवरी से 31 मई के बीच राज्य से 19,553 महिलाएं लापता थीं। पवार ने मुंबई पुलिस में कर्मियों की संविदा नियुक्ति को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य ने सरकारी भर्तियां संविदा पर करने का फैसला लिया है। इस सप्ताह की शुरूआत में, महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्वयं के सुरक्षा निगम से 3,000 कर्मियों को नियुक्त करने का आदेश जारी किया जो मुंबई पुलिस के तहत काम करेंगे।

गतिविधियाँ आतंकवादी गतिविधियाँ की संख्या सबसे निचले स्तर पर पहुँची

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की कमर पूरी तरह टूटी

अमन लेखनी समाचार

जम्मू-कश्मीर । जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब पांच करोड़ रुपये नकद एवं अवैध पदार्थ जब्त किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने बताया है कि पाकिस्तान नार्को-आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नार्को-आतंकवाद का केंद्र है और मादक पदार्थ जम्मू-कश्मीर के रास्ते पंजाब भेजे जाते हैं। हम आपको बता दें कि डीजीपी दिलबाग सिंह मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के मकसद से 30 सितंबर को शुरू किए गए संजीवनी अभियान के संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ₹अब तक जम्मू-कश्मीर और पंजाब के चार-चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जांच अभी जारी है। हम इस अभियान में अन्य जांच एजेंसियों को भी शामिल कर रहे हैं।₹ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर, खासकर जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में मादक पदार्थ पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा, संजीवनी अभियान के तहत, रामबन पुलिस ने कोकीन जैसे पदार्थ की एक बड़ी खेप पकड़ी है जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश ने इस साल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि यहां पिछले तीन दशकों में सबसे कम आतंकवादी घटनाएं और नागरिकों की मौत हुई हैं।

सिंह ने संवाददाताओं से कहा, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इससे पहले सुरक्षा स्थिति के मामले में सबसे अच्छा साल 2013 था।2013 में (आतंकवाद का) सबसे निचला स्तर था।

उन्होंने कहा कि बाद के वर्षों में चरमपंथी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई, जिसका उद्देश्य खत्म हो रहे आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों की भावनाएं भड़काना था। सिंह ने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और वह इसमें सफल रहा। उन्होंने अधिक लोगों को आतंकवाद में शामिल किया। आतंकवाद से संबंधित घटनाएं और आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हुई। 2017 में आतंकवाद का चरम था। जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख ने वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमने आतंकवादी घटनाओं का ग्राफ नीचे ला दिया। आतंकवादी गतिविधि को दर्शाने वाला ग्राफ अब 2013 के स्तर और 2017 के चरम स्तर दोनों से नीचे है।

> *जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश ने इस साल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि यहां पिछले तीन दशकों में सबसे कम आतंकवादी घटनाएं और नागरिकों की मौत हुई हैं।*

बीजेपी पर पवन खेड़ा का तंज

बटन कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा

आगे पवन खेड़ा ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आप वीवीपैट का बटन दबाएंगे तो उसमें बीजेपी का चुनाव चिह्न कमल की जगह अडानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में होंगे।

अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज के हर वर्ग के साथ न्याय किया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जब किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन दिया जाता है तो प्रधानमंत्री इसे रेवड़ी (मुफ्त) कहते हैं... लेकिन जब इसे अडानी को दिया जाता है तो वह इसे राहत के रूप में देखते हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता का कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है इसी भरोसे के दम पर अब की बार 75 पार का लक्ष्य पूरा होगा। आगे पवन खेड़ा ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आप वीवीपैट का बटन दबाएंगे तो उसमें बीजेपी का चुनाव चिह्न कमल की जगह अडानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में होंगे। वोटों की गिनती मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के साथ 3 दिसंबर को होनी है। इस बीच, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक कर रही है। इससे पहले आज, पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अंबिका सोनी, एमपी कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ और कई अन्य नेताओं सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस ने कहा था कि वह पितृपक्ष के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पुरानी सीट पाटन से चुनाव लड़ेंगे।

फाइलेरिया प्रभावित अंगों की देखभाल के गुर सिखाये

महोना पीएचसी पर फाइलेरिया रोगियों का हुआ एमएमडीपी पर अभिमुखीकरण

प्रदान की गयी एमएमडीपी किट

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ, बक्शी का तालाब ब्लॉक के महोना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान और स्वयंसेवी संस्था पाथ और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च(सीफॉर) के सहयोग से फाइलेरिया मरीजों का रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगता प्रबंधन (एमएमडीपी) पर अभिमुखीकरण किया गया । इस मौके पर 56 फाइलेरिया मरीजों को एमएमडीपी किट भी प्रदान की गयी ।

इस अवसर पर महोना पीएचसी के प्रभारी डा. राजेन्द्र कुमार ने कहा कि सरकार ने साल 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है इसी क्रम में एकीकृत निक्षय पोषण दिवस के तहत हर माह की 15 तारीख को भी फाइलेरिया के मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया जाता है पीएचसी प्रभारी ने बताया कि फाइलेरिया का दूसरा नाम हाथी पाँव है यह मच्छरजनित बीमारी है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है इसको केवल प्रबंधन से ही नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया मच्छरों से बचने के लिय मच्छरदानी और मच्छररोधी क्रीम का उपयोग करना चाहिऐ घर व घर के आस पास पानी न इकट्ठा होने दें क्योंकि ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं फाइलेरिया प्रभावित अंगों की देखभाल के लिए फाइलेरिया रोगियों को एमएमडीपी किट (बाल्टी, टब और मग) दिये गए । उन्होंने उपस्थित फाइलेरिया रोगियों से कहा कि जो भी समान दिया गया है उसका उपयोग फाइलेरिया प्रभावित अंगों की देखभाल में करें और प्रशिक्षण में फाइलेरिया प्रभावित अंगों की देखभाल करने के बारे में जो जानकारी दी जाए उसको अमल में लाएं इस मौके पर पाथ के प्रतिनिधि डा. अनंत विशाल ने उपस्थित फाइलेरिया मरीजों को बताया कि फाइलेरिया प्रभावित अंगों में सूजन न बढ़े इसलिए जरूरी है कि उनमें व्यापक मूवमेंट हो इसके अलावा महिलाएं फाइलेरिया ग्रसित पैरों में बिछिया या पायल और हाथों में अंगूठी या चूड़ियाँ पहनने से बचें । सीफार के सर्वेश ने फाइलेरिया प्रभावित अंगों को कैसे साफ करें इसका प्रदर्शन किया इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फाइलेरिया प्रभावित अंगों की नियमित रूप से सफाई करना बहुत जरूरी होता हैं इसके साथ ही प्रभावित अंगों की साफ सफाई करते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है अन्यथा संक्रमण होने की संभावना होती हैं उन्होंने बताया कि प्रभावित अंगों को साबुन से धोना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साबुन को सीधे प्रभावित अंगों पर नहीं लगाना लगाएं बल्कि साबुन का फेना बनाकर और उसे ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथों से लगाना चाहिऐ फिर पोंछकर उस पर एंटी सेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए इसके अलावा सर्वेश ने व्यायाम करके भी दिखाया

इस मौके पर पहले से एमएमडीपी का प्रशिक्षण प्राप्त 23 वर्षीय हेमलता और 43 वर्षीय श्यामावती ने बताया कि वह फाइलेरिया नेटवर्क समूह की सदस्य हैं और प्रशिक्षण के दौरान जो व्यायाम और साफ सफाई के बारे में बताया गया है उसका नियमित रूप से अभ्यास कर रहें है इससे उन्हे बहुत आराम है और अब किट से वो और अच्छे से देखभाल कर पाएंगी इस मौके पर बीसीपीम अजीत कुमार यादव, सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर बी.के. गौतम, हेल्थ सुपरवाइजर रवि मित्रा, सुरेन्द्र कुमार लैब टैक्नीशियन श्री कृष्णा, बाल सिंह, आशा संगिनी उषा, आशा कार्यकर्ता राजेश्वरी, सहित पीएचसी के कर्मचारी, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) की प्रतिनिधि, फाइलेरिया नेटवर्क समूह के 46 सदस्य तथा 10 फाइलेरिया रोगी मौजूद रहे

मुर्गी फार्म की गंदगी से बढ़ रही मक्खियां ग्रामीण परेशान

प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र के पास बना रखा है मुर्गी फार्म

परेशान ग्रामीणों ने फार्म का घेराव कर हटाने की मांग की मलिक ने मांगा कुछ और समय

अमन लेखनी समाचार

बंथरा। तिर्वा गांव स्थित एक पोल्ट्री फार्म की गंदगी और बदबू की वजह से पैदा हुई मक्खियों की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं. इस समस्या से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने समस्या के निराकरण के लिए पोल्ट्री फार्म का घेराव किया। पोल्ट्री फार्म से थोड़ी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। विद्यालय के अध्यापकों ने बताया यहां पोल्ट्री फार्म की वजह से मक्खियां और बदबू इतनी ज्यादा है की नौनिहालों की पढ़ाई से लेकर उन्हें परोसे जाने वाले भोजन को खाना भी दुश्वार हो जाता है। बदबू और मक्खियों की भरमार के कारण यहां पर अध्यनरत बच्चों में कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा बना हुआ है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों के अनुसार मक्खियों की वजह से स्थानीय लोगों का खाना-पीना, नहाना-धोना दुश्वार हो चुका है। जिसको लेकर हम लोग पोल्ट्री फार्म का घेराव कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पोल्ट्री फार्म के मालिक को भी फोन कर आगाह किया कि वह अति शीघ्र पोल्ट्री फार्म बंद करके अपनी जमीन पर कोई अन्य व्यवसाय स्थापित करे जिस पर पोल्ट्री फार्म के मालिक ने कुछ और समय मांगा है।

पोल्ट्री फार्म के मालिक ने बताया मैंने पूरे गांव तथा आसपास के इलाकों में दवाई का छिड़काव कराया था। बीते कुछ समय से फार्म में काम कर रहे मजदूरों की लापरवाही के कारण कई जगह पर दवाई का छिड़काव सुचारू रूप से नहीं हो सका है। आगे से नियमित रूप से टैंकर से मक्खी रोधी दवाई का सघन छिड़काव कराया जाएगा

श्री कृष्ण लीला में पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष

मोहनलालगंज.लखनऊ । श्री कृष्ण लीला का व्यापार मंडल अध्यक्ष ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ कराया। मोहनलालगंज नगर पंचायत मऊ में बीते कई वर्षों से श्री कृष्ण लीला का मंचन किया जा रहा है इस पांच दिवसीय कार्यक्रम को दूर दूर से दर्शक देखने आते है ।श्री कृष्ण दुर्गा माता समिति के संचालक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस कृष्ण लीला में मन मोहक बाल गोपालो द्वारा श्री कृष्ण, राधा,मां यशोदा, कंस ,नंद बाबा आदि का अभिनय शानदार तरीके से किया जाता है मोहनलालगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय पांडे उर्फ सत्यम पांडे ने श्री कृष्ण लीला में पहुंचकर दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ कराया,मंचन के शुभारंभ के बाद श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कमेटी के सदस्यो ने अहम भूमिका बनाकर कार्यक्रम आयोजित कराया जिसमे आस पास के गावो से दर्शक एकत्र होते है,इस मौके पर मिंटू गुप्ता,संजय वैश्य,विपिन गुप्ता ,त्रिलोकी यादव, राजेश मिश्रा ,दीपू सिंह,शिव मोहन ,वरिष्ठ भारतीय जीवन बीमा निगम सलाहकार शिव बालक गौतम शैलेंद्र सोनी ब्यूरो चीफ विष्णु गुप्ता सहित काफी संख्या में दर्शकों ने खूब आनंद लिया।

बी पैक्स सदस्यता अभियान के तहत सम्मान समारोह आयोजित

मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन वीरेन्द्र प्रताप सिंह रहे मौजूद

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। बी पैक्स सदस्यता महाअभियान के क्रम में राजधानी लखनऊ के माल ब्लॉक में जिला सहकारी बैंक परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन वीरेंद्र प्रताप सिंह संचालक जयवीर सिंह दिनेश सिंह शाखा प्रबंधक यादराम सिंह बसंतपुर सचिव उदयवीर सिंह बसन्तपुर समिति अधयक्ष रोहिणी सिंह सचिव पिपरी व रुदान खेड़ा दीपचंद्र देवरी भारत वीरपाल सिंह सचिव माल शेर बहादुर सिंह सचिव देवरी भारत वीरपाल सिंह सचिव खड्सरा कमलेश सचिव नबी डांडा सुरेंद्र कुमार सचिव अमलौली कौशल किशोर सचिव जमुलिया राघवेंद्र सिंह समेत बैंक कर्मचारी पंकज यादव, छोटे लाल, कौशलेंद्र प्रताप सिंह, कई लोग मौजूद रहे। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति माल के सभी समितियों के सचिवों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन वीरेंद्र प्रताप सिंह, संचालक जयवीर सिंह, दिनेश सिंह को पुष्प गुच्छ व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सहकारिता विभाग ने जनता को सीधे तौर पर जोडने की पहल की है।

62 वाँ स्थापना दिवस समारोह आयोजित

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। श्री हरभजराम कृपा देवी ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय, चारबाग का 62 वाँ स्थापना दिवस समारोह आज मनाया गया। इस अवसर पर कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम भी आयोजित हुए। जिसके अंतर्गत निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरूआत हुई, निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 36 महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए ,लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे गए, वटी बि मरीजों को निशुल्क पुष्टाहार वितरण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा थे। चिकित्सालय के वाइस चेयरमैन रमेश अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1961 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सीबी गुप्त ने श्री हरभजराम कृपा देवी ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय की नींव रखी थी उसके बाद से ही चिकित्सालय निरंतर मानव सेवा एवं जरूरतमंदों को निशुल्क इलाज देने की दिशा में निरंतर अग्रसर है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमलेश मिश्रा क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि चिकित्सालय का बिना किसी सरकारी व गैर सरकारी मदद के निरंतर 62 वर्षों से मानवता की सेवा करता आ रहा है यह अपने आप में बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है और इसके लिए श्री हरभज राम कृपा देवी ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं। अस्पताल के अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री /विधानसभा सदस्य विद्यासागर गुप्ता ने चिकित्सालय की उपलब्धियां पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज अस्पताल में नेत्र रोग विभाग के अलावा हड्डी रोग विभाग ,स्त्री रोग विभाग व अन्य विभागों में गरीबों , असहयों को निशुल्क उपचार मिल रहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई वर्ष 1991 व 1993 में अस्पताल में लगे निशुल्क मोतियाबिंद चिकित्सा कैंप में आए थे उन्होंने अस्पताल के प्रयासों की भूरि भूरि प्रशंसा भी की थी. ट्रस्ट के सचिव अमित गुप्ता ने कहा कि हर साल अस्पताल द्वारा 100 से अधिक मरीजों का निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाता है. दवा एवं चश्मा भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेरणा से कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी की गई है। कार्यक्रम में अस्पताल के अन्य ट्रस्टी सुशील अग्रवाल ,ललित गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता ,रजत गुप्ता , अरुण गुप्ता के अलावा डॉक्टर ,पैरामेडिकल स्टाफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीआरो राघवेंद्र शुक्ला भी मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

गोड़वा गांव बना गंदगी का साम्राज्य

अमन लेखनी समाचार

सरोजनी नगर लखनऊ। सरोजनीनगर ब्लॉक के रहीम नगर पड़ियाना स्थित गोड़वा गांव में पिछले करीब 2 माह से सफाई नहीं हुई है। जिसकी वजह से पूरे गांव में गंदगी का साम्राज्य है। सफाई न होने के कारण नालियां बजबजा रही हैं। यही नहीं कई जगह नालिया चोक तक हो गई हैं। जिसके कारण घरों का निकलने वाला पानी रास्तों में फैल कर बह रहा है। बताते हैं कि यहां सफाई कर्मियों की तैनाती काफी दिनों से नहीं है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बाद महीना - दो महीना में यहां कोई सफाई कर्मी आकर फर्ज अदाएगी कर देता है। सबसे ज्यादा यहां बड़ी समस्या हीरालाल, शिवकुमार और होरीलाल पटेल आदि के घरों के सामने है। यहां नालियों की सफाई न होने के कारण वह मलबे से भर गई है और उनका पानी उफनाकर रास्ते में बहता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि हीरालाल के घर के पास नाली में पड़ी सीमेंटेड पाइप काफी दिन पहले टूट गई थी। जिसकी वजह से उसका सारा पानी रास्ते में ही बहता रहता है। इसको लेकर ग्राम प्रधान के अलावा ब्लाक अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक पाइप नहीं बदली जा सकी। सबसे दिलचस्प बात तो यह कि नालियां गंदगी से पटी होने के कारण घरों का पानी बहने के बजाय नालियों में ही प्राय भरा रहता है। साथ ही सफाई न होने के कारण कहीं-कहीं पर नालियों में बड़ी-बड़ी घास तक खड़ी हो गई है। वहीं नालियों में हमेशा पानी भरा रहने के कारण मच्छरों की भरमार होती जा रही है। इससे ग्रामीणों में डेंगू जैसी बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। जबकि नालियों में घास खड़ी हो जाने के कारण तमाम प्रकार के छोटे-छोटे जीव जंतुओं ने अपना बसेरा बना लिया है। लोगों का कहना है की गंदगी के कारण यहां कभी भी संक्रामक बीमारी फैल सकती है।

बनी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को किया निलंबित

सहायक अध्यापिका से मारपीट करने के संबंध में हुई थी शिकायत

अमन लेखनी समाचार

बंथरा। बंथरा के ग्राम सभा बनी मे स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा सहायक अध्यापिका को थप्पड़ों से मारने व अध्यापिका से मारपीट करने के विषय पर शिकायत करने पर लखनऊ बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापिका उषा रानी गौतम को निलंबित कर दिया गया है वही आपको बताते चले की प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पर आरोप है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन सही से न कर अपने विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका के साथ मारपीट करने वहीं स्टाफ के साथ सही व्यवहार न करने अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर कार्रवाई की है तो विद्यालय में साफ सफाई ना होने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कार्य योजना को नहीं बनने पर व शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने पर कार्रवाई की है वही आदेश पत्र में बताया गया है कि नियमों के अनुसार प्रधानाध्यापिका को आधा वेतन दिया जाएगा वहीं विद्यालय के आसपास के लोगों का कहना है कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का रवैया सही नहीं है वह किसी की नहीं सुनती है अभिभावक यदि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी बात को रखते तो वह उनकी बातो पर गौर नहीं करती थी।

आशा बहुओं,संगीनियो, राष्ट्रीय लोक दल की हुंकार

सरकार को सबक सिखाने की तैयारी

आशा बहुओं को मिला राष्ट्रीय लोक दल का साथ

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। राजधानी के इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर अपने दो दिवसीय धरने के दौरान शुक्रवार को आशा बहुओं ने हुंकार भरी और सरकार को चेतावनी देते हुए विधानसभा कूच करने का प्रयास किया इस दौरान पुलिस के रोकने पर हल्की झड़प भी हुई ।आशा बहुओं का सरकार पर आरोप है कि आशा बहुओं से पूर्ण कर्मचारियों की तरह हाड़ तोड़ काम लेने के बाद भी सरकार उनको मात्र 1500 रुपए देती है वो भी कभी भी समय पर नहीं मिलता इस पैसे के लिए भी उनकी तरफ से कागज भरने में मामूली चूक हो जाए तो वो भी नहीं दिया जाता ।

छलका आशा बहुओं और आशा संगीनियों का दर्द

बधुआ मजदूरों से बदतर स्थिति में काम करने को मजबूर हैं आशा बहुएं और आशा संगीनियां और पन्द्रह सौ रुपए में कैसे कोई अपना घर चलाएगा और कैसे इससे घर का राशन शिक्षा स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकता पूरी हो ? पुष्पा तिवारी सरकार ना तो आशा बहुओं को सरकारी आवास योजना का लाभ दे रही है ना ही आयुष्मान कार्ड ही बनाया जा रहा है और न ही हमारे बच्चों की शिक्षा ही सरकार सुनिश्चित कर पा रही है ।रोजाना 10 या 15 रुपए पर काम करने को मजबूर किया जा रहा है और काम में कोई मानवीय त्रुटि हो जाए तो अधिकारी अपमानित करने और धमकाने से पीछे नहीं हटते ।

राष्ट्रीय लोक दल ने आशा बहुओं और आशा संगीनियों को अपना पूर्ण समर्थन देने का किया ऐलान

अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का संदेश लेकर लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आशीष तिवारी ने आशा बहुओं को राज्यकर्मियों का दर्जा दिलाने की मांग का समर्थन किया और इसे विधानसभा से लेकर संसद तक पार्टी अपना समर्थन देगी यही नहीं इसके लिए यदि सड़कों पर संग्राम करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेगी ।कार्यक्रम के अंत में आशा बहुओं ने रैली निकालने का प्रयास किया लेकिन पुलिस के रोक जाने पर और एसीपी कैंट पंकज कुमार के आश्वासन पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर अपना धरना समाप्त कर दिया ।इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक दल के महानगर के नगर प्रवक्ता एस पी पाठक , महासचिव रोहित सैनी नितिन , उपाध्यक्ष रिपुंजय शर्मा और आदित्य सिंह राठौर और अन्य लोग मौजूद रहे ।

भाजपा नेता नैमीश त्रिपाठी ने जनता के बीच मनाया जन्मदिन

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता व सदस्य प्रदेश कार्यसमिति नैमीश त्रिपाठी जो कि जनता के बीच हमेशा सुख और दुःख में बराबर सहभागिता करते हुए जनप्रिय बने रहते हैं ।लखनऊ शहर में एक अलग पहचान बनाने वाले समाजसेवी व राजनीतिक नैमीश त्रिपाठी शहर के जनमुद्दों पर हमेशा संघर्षरत रहते हैं। यही कारण है कि लखनऊ जनपद में एक सच्चे समाजसेवी के रूप में नैमीश की पहचान है ।इसी क्रम में नैमीश त्रिपाठी का जन्मदिन लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर सहयोगियों द्वारा स्वागत एवं माल्यार्पण कर मनाया गया ।जिसमें आशुतोष रस्तोगी अनुराग वर्मा रामेन्द्र अवस्थी आकाश सिंह आशुतोष तिवारी राहुल शिवम अतुल दिमान आदि लोग मौजूद रहे।

मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्यकर्ताओं ने निकाली जन जागरण यात्रा

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव व अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एनडीए को हराएगा पीडीए के नारे को बुलंद करने व जन जन तक पहुंचाने के लिए लखनऊ सरोजनी नगरब भटगांव निवासी ज्ञानेन्द्र कुमार ₹ज्ञानू यादव₹ निवर्तमान जिला सचिव सपा लखनऊ व अजीत यादव पूर्व जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी लखनऊ के नेतृव में पीडीए जनजागरण साईकिल यात्रा का आयोजन किया गया यह यात्रा 6 अक्टूबर को मथुरा से चलकर आगरा फतेहाबाद ब जसवंतनगर होते हुए श्रद्धेय नेता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर 10 अक्टूबर को उनकी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करकेपुनः कन्नौज हरदोई , संडीला होते हुए सरोजनी नगर लखनऊ पहुंची। ज्ञानू यादव ने बताया कि समता, समाजवाद से ही देश में समृद्धि आ सकती है इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नेता जी के विचारों को भ्रमण कर जन जन तक पहुंचाना है। जिस तरह उन्होने समाज के हर वर्ग के लिए किसान,देश के जवान,मजदूर, महिला,दलित ओबीसी, अल्पसंख्यक छात्र नौजवान आदि सभी के लिए कुछ न किया है, और धरती पुत्र और नेता जी की उपाधि प्राप्त की। नेता जी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। ये नौजवानों की पार्टी है। इस लिए हम सबकी विशेष जिम्मेवारी बढ़ जाती हैं की बाबा साहब अम्बेडकर , डा लोहिया जी जनेश्वर मिश्र व नेता जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और समाज में कुछ संघर्ष करके उनको श्रद्धांजली अर्पित की जाए। बताते चलें कि यात्रा का स्वागत संडीला में आरपी यादव, मलिहाबाद में राम सिंह यादव, जुबैर हाफिज पूर्व प्रधान मुजासा अखिलेश यादव, दुगार्गंज में मनोज रावत, मुलायम यादव, काकोरी में इब्राहिम मसूरी , हाता सीतला मंदिर पर पप्पू यादव, काकोरी मोड़ पर धर्मेंद्र यादव , काकोरी मोड़ पर राजबाला सनी रावत जी, सरोसा मोड़ पर विनोद यादव फतेहगंज, हंसखेड़ा में पंकज यादव,धीरज यादव, अजीत यादव जी एवं अनोरा में सरोजिनी नगर विधानसभा अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के द्वारा स्वागत सम्मान कराया गया। इस कार्यक्रम के सहयोगी धर्मेंद्र यादव उन्नाव,गौरव बरेली,आकाश कुमार रामपुर,रोहित यादव संभल, रविंद्र यादव राष्ट्र संभल, अभिषेक आजमगढ सहित जिले वार सैकड़ों कार्यकताओं ने हिस्सा लिया। और इस यात्रा का जगह जगह पर स्वागत सम्मान किया गया।

मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे दो यात्रियों के बैग हुए गायब, रिपोर्ट दर्ज

अमन लेखनी समाचार

सरोजनी नगर लखनऊ। करीब 3 माह पहले आकासा एयर की उड़ान से मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे दो यात्रियों के बैग गायब हो गए थे। इस मामले में काफी जांच पड़ताल के बाद आकासा एयरलाइन के सिक्योरिटी मैनेजर ने दो यात्रियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर आकासा एयरलाइन में सिक्योरिटी मैनेजर पद पर तैनात प्रभजोत सिंह सलूजा के मुताबिक बीती 19 जुलाई को मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट आने वाली आकासा एयर की उड़ान से कुल 135 पैसेंजर और 74 चेकिन बैग आए थे। यह सारे बैग मुंबई एयरपोर्ट पर उक्त फ्लाइट में लोड किए गए। जब फ्लाइट लखनऊ में लैंड हुई तो सारे बैग अराइवल बैलट पर डाल दिए गए। लेकिन प्रमोद कुमार राय और हर्षवर्धन पटोदिया का बैग नहीं मिला। इसके बाद जांच पड़ताल करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उससे पता चला कि प्रमोद कुमार राय का बैग यात्री ज्ञान शंकर और हर्षवर्धन पटोदिया का बैग भावेश बेईमानी की नीयत से उठा ले गए हैं। यह जानकारी होने के बाद जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, तो संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद सिक्योरिटी मैनेजर प्रभजोत सिंह सलूजा ने गुरुवार शाम यात्री ज्ञान शंकर और भावेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार

सरोजनी नगर लखनऊ। बिजनौर इलाके में करीब 2 सप्ताह पहले एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के साथ ही विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के पास्को एक्ट में आरोपी को बिजनौर पुलिस ने शुक्रवार को इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पास्को एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया है। बिजनौर इंस्पेक्टर अरविंद कुमार राणा के मुताबिक पीजीआई के कल्ली पश्चिम स्थित अमोल गांव निवासी सिद्धार्थ तिवारी उर्फ आदर्श ने बीते दिनों बिजनौर इलाके में रहने वाली एक किशोरी को अकेला पाकर उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पीड़िता की ओर से 28 सितंबर को बिजनौर थाने में छेड़छाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी के अलावा पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी। लेकिन वह लगातार फरार चल रहा था। शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सिद्धार्थ तिवारी माती से अमोल जाने वाले रास्ते पर भागने की फिराक में खड़ा है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे मौके से धर दबोचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है।

संक्षेप

रास्ते के विवाद को लेकर भाई ने सगे भाई को पीटा, मुकदमा दर्ज

सुमेरपुर, उन्नाव। थाना बिहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिसरामऊ में भाई ने अपने सगे भाई को रास्ते के विवाद को लेकर लाठी डंडो से पीट दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिसरामऊ निवासी फूलचंद्र पुत्र रामदीन यादव शुक्रवार को रोज की तरह अपने दरवाजे बैठा था तभी उसका सगा भाई कन्हैया लाठी लेकर आया और रास्ते के विवाद को लेकर गाली -गलौज करने लगा साथ ही लाठी से ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। लाठी लगने से उसका सर फूट गया और खून बहने लगा। पास-पड़ोस के लोगो के कारण उसकी जान बच सकी। पीड़ित ने थाना बिहार में तहरीर दी। नवागत थाना प्रभारी शिव प्रकाश पांडेय ने बताया तहरीर और मेडिकल के आधार पर पीड़ित का मुकदमा दर्ज विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवाहिता को ससुराली जनों ने मारपीट कर घर से निकाला

बीघापुर। थाना क्षेत्र के अन्तर्गत इंदामऊ रेलवे स्टेशन के निकट रहने वाली महिला निशा पत्नी अखिलेश ने अपने ससुराली लोगों के खिलाफ लिखित तहरीर दिया कि हमारे पति अखिलेश हमारी सास मंजू देवी ससुर टानू सिंह के कहने पर हमें मारते पीटते प्रताड़ित करते हैं मैं इस समय गर्भवती हूं मेरे पेट में भी मुझे लात मारी जिससे मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं बहुत परेशान हो गई हूं मुझे भगा देने की धमकी दे रहे हैं पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

बेईमानी की नियत से पूर्व प्रधान ने किया गाली गलौज

औग, फतेहपुर। विकास खण्ड मलवां की ग्राम पंचायत शिवराजपुर के पूर्व प्रधान ने पांच माह पूर्व गांव के एक व्यक्ति से मवेशियों के लिए उधार चारा खरीदा था इसी का पैसा बेईमानी करने की नियत से चारा विक्रेता के घर में तीन लोगों ने लाठी डंडे लेकर चढ़ाई की तथा गाली गलौज करके एकान्त में मिलने पर देख लेने की खतरनाक धमकी दी , जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है , किन्तु अमन लेखनी समाचार पत्र इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है । घटना की एफआईआर थाने में तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता सौरभ पुत्र रज्जनलाल निषाद निवासी ग्राम सगुनापुर मजरे शिवराजपुर की लिखित तहरीर के अनुसार पांच महीने पहले पूर्व प्रधान सुरजपाल यादव ने वादी से चारा (कर्बी) उधार खरीदा था जिसका मोबाइल के द्वारा तगादा करने पर पूर्व प्रधान आपे से बाहर हो गए और दो लोगों के साथ लाठी डंडे से लैस होकर वादी के घर में चढ़ाई बोल दिया और जमकर गाली गलौज करने के साथ धमकी दी । जिस पर वादी ने पूर्व प्रधान सूरजपाल यादव भाई सतेन्द्र यादव तथा दयाशंकर पुत्र छोटेलाल के विरुद्ध धारा 352 , 406 , 504 , 506 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पर दूसरी ओर पूर्व प्रधान ने लगाए गए आरोपों को निराधार एवम बेबुनियाद बताया है । ज्ञात हो कि आरोपी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत स्थित श्री गिरधरगोपाल नन्दी गोशाला का संचालक बताया जाता है , एफआईआर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चारा किसके लिए खरीदा गया था , जिसके भुगतान को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विद्यालय परिसर में शिक्षा चौपाल का किया गया आयोजन

अमन लेखनी समाचार

सुमेरपुर, उन्नाव। निपुण भारत मिशन के सफल क्रियान्वयन, जन भागीदारी एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु आज उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसालखेड़ा विकास क्षेत्र बीघापुर में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निपुण लक्ष्य प्राप्त व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसाल खेड़ा विकासखंड बीघापुर में आयोजित शिक्षा चौपाल की मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सुची गुप्ता ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा विकास क्षेत्र बीघापुर में संचालित परिषदीय विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के 19 मूलभूत और अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराए जाने की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है जिससे अभिभावक अपने बच्चों की यूनिफॉर्म जूता मौज स्कूल बैग तथा स्टेशनरी स्वेटर खरीदने के लिए उपयोग करें। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षा के क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जिसके अंतर्गत मॉडल प्रिंटेड सामग्री निपुण लक्ष्य सूची तथा शासन द्वारा जारी विभिन्न एप्स जैसे दीक्षा एप रीड एलांग एप की उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वह अपने बच्चों का विद्यालय में शत प्रतिशत उपस्थिति दे। एआरपी अभिषेक गुप्ता ने उपस्थित बालिकाओं से संवाद स्थापित करने की बात कही। एआरपी आलोक सिंह ने अभिभावकों को निपुण भारत मिशन के बारे में अवगत कराया प्रतिमाह होने वाली शिक्षक अभिभावक मीटिंग में अभिभावकों को शामिल होने की अपील भी की। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्चन एवं दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथियों का स्वागत नोडल शिक्षक अशोक कुमार ,ई0शि0 रिसालखेड़ा दिनेश कुमार व शिक्षको ने सम्मिलित तौर पर किया।यूपीएस रिशाल खेड़ा एवम पीएस गहरेंदा की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सभा को प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट राजेश कुमार ने भी संबोधित किया। संचालन जूनियर संघ अध्यक्ष गणेश शंकर गुप्ता ने किया। शिक्षा चौपाल में मुख्य रूप से एआरपी दिनेश कुमार, अवधेश कुमार, धनेंद्र बहादुर, अवनीश कुमार, काली किशोर, नंदकिशोर, कामिनी मिश्र ,दीपिका महरोत्रा, नेहा तिवारी, प्रज्ञा गुप्ता, अमित शुक्ला उपाध्यक्ष शिक्षा मित्र संगठन, दिवाकर सिंह, एवम अभिभावक गण उपस्थित रहे।

18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवक युवती व नई बहुएं मतदाता सूची में अपना अपना नाम करे शामिल

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। उपजिलाधिकारी सदर नृमता सिंह निर्वा0रजि0अधि0 विधानसभा क्षेत्र-165 उन्नाव ने बताया है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्वाचन आयोग के निदेशार्नुसार निर्वाचक नामावली में सभी अर्ह मतदाताओं/नई बहुओं के नाम शत-प्रतिशत सम्मिलित किए जाने हेतु विधान सभा क्षेत्र-165 उन्नाव के क्षेत्रान्तर्गत व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों उद्योग प्रतिनिधियों, ईट भट्ठा स्वामियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ तहसील सदर उन्नाव के सभागार में बैठक आहूत की गयी।बैठक में बताया गया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निवार्चक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर 2023 तक संचालित है, जिसमें विशेष कैम्प दिवस दिनांक 04 नवम्बर, 05 नवम्बर, 25 नवम्बर, 26 नवम्बर, 02 दिसम्बर एवं 03 दिसम्बर 2023 को आयोजित किए जायेंगे, जिसमें बूथ लेबिल अधिकारी प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक अपने-अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर प्रारूप-06 व 07 तथा 08 के फार्म प्राप्त करेंगे तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पुरूष एवं महिला तथा विशेषकर नई बहुओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने हेतु बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारियों एवं बालविकास परियोजना अधिकारी के अधिनस्थ कार्यरत आशा बहुओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकृत्रियों एवं उपायुक्त व्यापार मण्डल तथा ईट भट्ठा स्वामियों के द्वारा स्वीप के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों के अधिक से अधिक नाम सम्मिलित करने हेतु अवगत कराया गया, जिसमें नई बहुओं एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने हेतु विशेष बल दिया गया।बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एच0एन0 प्रसाद, एमओआईसी डा0 सजीव कुमार बिछिया, डा0 विकास आनन्द सि0 सरोसी, डा0 मनीष बाजपेयी सि0 कर्ण, डा0 आर0के0 सिंह मोती नगर उन्नाव, डा0 सुजीत काशीराम कालोनी, डा0 राहुल मिश्रा गंगाघाट, फार्मासिष्ट श्री आशीष कुमार पुरानी बाजार उन्नाव, मुख्य सेविका रचना सिंह शहर उन्नाव, कु0 विनीता शुक्ला बिछिया, सरोज विवेक सिं0 कर्ण, अनीता सरोसी आदि उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में प्रतिभा कर रहे बच्चो को मेडल व दिए उपहार

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में 72 वी जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता वर्ष 2023.. 24 का समापन सत्र में सम्मिलित होते हुए मुख्य अतिथि सदर विधायक पंकज गुप्ता एवं जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अरुण सिंह एवं आतिथि नगर पंचायत नवाबगंज के अध्यक्ष दिलीप लस्करी जिला विद्यालय निरीक्षक एसपी सिंह कार्यक्रम के प्रभारी धर्मेश प्रताप सिंह एवं सहयोगी नवीन सिन्हा उपस्थित युवा खिलाड़ियों एवं विभिन्न विद्यालयों के प्रधान अध्यापिका एवं अध्यापकों के मध्य अरुण सिंह अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक उन्नाव द्वारा बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भविष्य में खेल जगत में नया आयाम स्थापित करने के लिए सभी बच्चों को हौसला अफजाई किया तथा इस प्रतियोगिता में प्रतिभा कर रहे सभी बच्चों को मेडल व उपहार देकर सभी बच्चों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं दीं।

शारदीय नवरात्रि में करें कलश स्थापना

आचार्य पंडित ऋषि कान्त मिश्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य

अमन लेखनी समाचार

सफीपुर, उन्नाव। इस वर्ष अद्भुत संयोग से प्रारम्भ हो रहे नवरात्रि व्रत के पहले दिन रविवार दिनांक 15 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त दिन में सर्व मान्य काशी विश्वपचागके अनुसार समय 11बजकर 36 से 12 बजकर 24 के मध्य ही किया जायेगा और शास्त्रों के अनुसार रात्रि में नहीं की जाती है कलश स्थापना यह अभिजित मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है

वैसे तो परम्परा नुसार सभी सनातनी धर्मावलंबी भक्त जन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कन्या लग्न द्विस्वभाव राशि की होने से भी उत्तम योग बन रहा है जिसके कारण और निवारण भी है क्योंकि चित्रा नक्षत्र वैधृति योग पड़ने से मन में शंका हो रही है इसलिए जब लग्न और चौघड़िया मुहूर्त में शुभ अमृत लाभ बेला संयोग से लेने से शुभ फल प्राप्त होता है और इसे हम सभी सनातनी धर्मावलंबी भक्त श्रृद्धा और भक्ति में लीन होकर करें आश्विन मास का पहला पक्ष पितरों को समर्पित रहता है और दूसरा शुक्ल पक्ष मूल रूप में बसे प्रकृति और पुरुष के प्रतीक आद्य शक्ति स्वरूपा भगवती की आराधना सनातन धर्मियों के मनोमतिषक में बसे मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित गान और उनकी लीला का मंचन भी शुरू हो रहा है और सदा से ही सुरक्षित रहा है। इसे हम शारदीय नवरात्रि व्रत पर्व के रूप में मनाते परम्परा गत गत वर्षों की भांति ही मनाया जाएगा इस वर्ष अद्भुत संयोग और नौ दिन तक नवरात्रि पर्व माना जाएगा।

तथा जो सनातन धर्मी अष्टमी तिथि को देवी पूजा पाठ हवन करते हैं उनके लिए शास्त्र सम्मत महाअष्टमी व्रत रविवार 22 अक्टूबर को वैदिक विधि विधान से करायें और स्वयं भी करें।

कन्या भोज भंडारा आयोजित किया जाएगा। नवरात्रि व्रत पर्व नवमी तिथि सोमवार 23 अक्टूबर को वैदिक विधि विधान से करायें और व्रत का पारण 24 अक्टूबर को प्रातः काल 11 /59 बजे तक करें तथा आज ही दशहरा पर्व भी मनाया जाएगा। जन जन तक असत्य पर सत्य की विजय हुई थी और उसी खुशी से झूम झूम कर गली गली में जय श्री राम के जयघोषों से राममय वातावरण हो जायेगा।

नवरात्रि को लेकर मंदिरों पर संस्था के कैडेट ने की साफ सफाई

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के संस्थापक/अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने जनपद के समस्त मन्दिर, धार्मिक स्थलों व शिक्षा संस्थान स्कूलो व कालेजो के आस पास संचालित शराब और मांस की दुकानों को हटाया जाए इसके साथ ही जनपद में संचालित अवैध बूचड़खाने वह खुले में जानवर काटने वाली मांस की दुकानों को अभियान चलाकर बंद कराया जाए मंदिर परिसर के आस पास वह बाहर बैठने वाले भिखारियों को चिन्हित किया जाए ऐसा तो नहीं कि भिखारियों की भेष में अपराधियों, नशेबाजों अपना व्यवसाय चला रखा हो जिन्हें चिन्हित कर दंडित किया जाए आगामी 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है नवरात्रि के अवसर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अध्यक्ष ने कहा है कि नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में विशेष चहल-पहल होती है। इसलिए मंदिर परिसर के आस पास सफाई के साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए।इसमें महिला पुलिस वालों को भी लगाया जाए जनपद में कई पौराणिक मंदिर स्थापित है जिनमें बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जिसको देखते हुए संस्था अध्यक्ष ने कहा है कि जनपद के सभी मंदिरों पर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए जिससे लव जिहादियों वह स्वार्थी तत्वों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जा सके। श्रद्धालुओं को पानी पीने की व्यवस्था के साथ ही नवरात्र के अवसर पर रात्रि में बिजली कटौती ना करने की भी मांग की है इस दौरान एनसीसी कैडेट राज सिंह रोहित मोहिनी काजल अलका आरती सोनू सर्वेश पाल मोहित शुक्ला सनी भांगड़ा राजेश अमन सिंह अमन यादव अंकुश अश्वनी शुक्ला अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मायके पक्ष ने किया पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा भाई का आरोप मारकर लटकाया गया बहन का शव

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। दही थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव की रहने वाली महिला का गुरुवार दोपहर संदिग्ध हालत में फंदे पर शव लटका मिला। जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने जांच बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मायके पक्ष ने हंगामा करते हुए मार डालने का आरोप लगाते रहे सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी प्रकार समझा बुझाकर मामले को शांत कराया

रायपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाले संतोष नगर पालिका परिषद उन्नाव में पत्र वाहक के पद पर आउस सोर्सिंग के तहत तैनात है। गुरुवार वह ड्यूटी पर मौजूद था। संतोष की 6 मई 2013 में कानपुर थाना कैंट के चौरा सत्ती मोहल्ला की रहने वाली जानकी के साथ शादी हुई थी उसके दो बेटियों में सृष्टि (6) व दृष्टि (3) हैं। गुरुवार दोपहर सृष्टि ने मां जानकी को फंदे से लटका देखा तो बुआ विनय कुमारी को जानकारी दी। घर के कमरे के पंखे पर साड़ी के सहारे चौतीस वर्षीय पत्नी जानकी का शव देखा तो परिजनों के पैरो तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की। जानकी की मौत की खबर मिलने पर परिजन व भाई आदि शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए।

जहां परिजनों का आरोप है कि मार कर फंदे से लटका फांसी लगाए जाने का रूप दिया गया है।मृतका जानकी के पिता मुन्नू की पहले ही मौत हो चुकी है। तीन बहन व इकलौते भाई सरवन में सबसे छोटी थी। दो बड़ी बहनों में मालती व कांती है। कांती की सात साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। जानकी की मौत को लेकर मां श्रीदेवी व भाई सरवन रो-रोकर बेहाल होते रहे। भाई सरवन का आरोप है कि जानकी फांसी नहीं लगा सकती। उसके मार कर फंदे से लटका दिया गया है।

पुलिस के हत्थे चढ़ा 4लाख की चोरी करने वाला चोर

अमन लेखनी समाचार

बांगरमऊ, उन्नाव। पुलिस की सतर्कता और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह की सूझ बूझ के चलते चोरी के एक घंटे बाद चोर को दबोच लिया गया पुलिस ने चोरी की इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है, बल्कि वारदात में शामिल शातिर चोर को गिरफ्तार कर 2.50लाख रूपए व आर्टिफिशियल कंगन के भी बरामद कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया कस्बा मोहल्ला भटपुरी निवासी रिजवान उर्फ कड़ा पुत्र इस्लाम पिछले कई वारदातों को अंजाम देकर जेल में सजा काट रहा था। अभी 5 दिन पहले ही जेल से छूटकर घर आया था।की इसी बीच पड़ोस के रहने वाले रईस पुत्र सद्दीक के घर को निशाना बना लिया। और रातों-रात घर से करीब 4 लाख कैश के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि शातिर चोर पर पहले से ही कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं।

पितृ विसर्जन व पितरों की हुई विदाई

अमन लेखनी समाचार

शेर बहादुर एडवोकेट

बीघापुर, उन्नाव। पितृ विसर्जन के साथ पितरों को विदाई दी जाएगी और पितृ पक्ष का समापन हो जाएगा। अगर कोई परिवार अपने पितर का श्राद्ध तिथि विशेष को न कर पाया हो या श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो वह सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध कर सकता है। पितृ पक्ष के आखिरी दिन का काफी महत्व होता है।पितृपक्ष का समापन आश्विन माह की कृष्ण अमावस्या के दिन होता है, जो श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। यानी अमावस्या से पितृ पक्ष समाप्त हो जाएगा। इस अमावस्या को पितृमोक्ष भी कहते हैं। इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज्ञात-अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यानी जिन पितरों का नाम याद न हो या उनके बारे में कोई जानकारी न हो। ऐसे पितरों का श्राद्ध अमावस्या को करते हैं। इसी दिन से दशहरा महोत्सव की शुरूआत भी होती है।

संकल्प के साथ करें तर्पण

इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। पवित्र नदियों में स्नान करें।

घर में बने भोजन में से सर्वप्रथम गाय के लिए, फिर श्वान के लिए, कौए के लिए, चीटियों के लिए भोजन का अंशश्राद्ध में कर देना चाहिऐ

बिना संकल्प के श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता, इसलिए अंतिम दिन स्नान के बाद हाथ में अक्षत, चंदन, फूल और तिल लेकर पितरों का तर्पण करें।

मार्ग दुर्घटना में मृतक चाचा भतीजे के शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। सोहरामऊ थाना अंतर्गत कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर गुरुवार रात फसल की रखवाली कर रहे चाचा - भतीजा को सड़क पार करते समय तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी थी। दोनों की रात में ही मौत हो गई थी। शुक्रवार को दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया।सोहरामऊ थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम कानपुर लखनऊ राजमार्ग पार कर रहे बैजनाथ रावत 70वर्ष पुत्र रेवती व श्री किशन 50 वर्ष पुत्र मैकू निवासीगण हिनौरा थाना सोहरामऊ जो रिश्ते में चाचा भतीजा थे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप लोडर ने बजेहरा मोड़ के पास दोनो को जोरदार टक्कर मार कर भाग निकला था। दोनों फसल की रखवाली कर रहे थे। रात में चाय पीने जाते समय सड़क पार करते समय हादसा हुआ था। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने दोनों को सीएचसी ले गई थी। जहां चिकित्सक ने श्री किशन को मृत घोषित कर दिया गया था। गंभीर हालत में एंबुलेंस से बैजनाथ को जिला अस्पताल भेजा जा रहा था लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो गई थी। दिवंगत श्री किशन बैजनाथ का भतीजा था। शुक्रवार को दोनों शवों पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शवों के गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। दिवंगत बैजनाथ की मौत पत्नी रामरती बिलख उठी। वहीं राम नरेश ,मनोज , संजय और मोहित पिता भी पिता को मौत पर बेहाल रहे। दिवंगत श्रीकिशन की पत्नी का पहले निधन हो चुका था। उसके दोनों बेटे संदीप व दिलीप भी रो -रो कर बेहाल रहे। सोहरामऊ पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन को पकड़ लिया है।

जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

अमन लेखनी समाचार

सफीपुर, उन्नाव। जनपद में चल रही जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सफीपुर जोन ने पहली बार ऑल ओवर चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। बताते चले की यह पहली बार हुआ है जब सफीपुर जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती हो। जिसमें जोन इंचार्ज कुलदीप पटेल, जय सिंह एवं सुरेंद्र पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सफीपुर जोन ने ओवरआल चैंपियनशिप के अलावा जूनियर चैंपियनशिप एवं सब जूनियर चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी अपने नाम की। वही व्यक्तिगत चैंपियनशिप में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के साहिल ने सीनियर वह रवि यादव ने सब जूनियर चैंपियनशिप जीती। इन चैंपियनशिप में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, गोला फेक, चक्का फेक सहित कई प्रतियोगिताएं हुई थी जिसमें महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर, व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सफीपुर के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाए रखा । महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर प्रधानाचार्य शरीफ खान, राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना निगम जोन इंचार्ज कुलदीप पटेल ने चैंपियनशिप की ट्रैफिक ग्रहण की क्षेत्र में जब इसकी जानकारी हुई तो खुशी की लहर दौड़ गई बताते चलें खिलाड़ियों के साथ-साथ खेल टीचर एवं जॉन इंचार्ज कुलदीप पटेल, गौरव कुमार सुशील कुमार, जय सिंह, सुरेंद्र पाल, देशराज, बंदना शुक्ला एवं अमृता सिंह ने अहम योगदान दिया।

इसराइल और हमास की जंग को देखते हुए जुमे की नमाज को लेकर जनपद में रहा हाई अलर्ट

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। इसराइल और हमास की जंग को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। इसी के चलते संवेदनशील क्षेत्रों सहित मस्जिदों पर फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा समेत अन्य आला अफसरो ने मॉनिटरिंग की है। अधिकारियों के आदेश पर सीसीटीवी सहित अन्य उपकरणों से भी शहर व मस्जिदों की गतिविधि पर नजर रखी गयी। पुलिस फोर्स शहर के अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर रही है। हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ छेड़ी गई जंग के बाद इजराइल ने पलटवार करते हुए भीषण बमबारी की है। जिसके चलते यूपी में हाई अलर्ट की घोषणा की गई थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज हमास के पक्ष में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर न उतर । इसी को ध्यान में रखते हुए उन्नाव को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रो के जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में पुलिस फोर्स तैनात रहा।

दो घरों में सेंध लगाकर चोरों ने नगदी समेत पार कर दिया लाखो के जेवरात

हसनगंज, उन्नाव। कोतवाली क्षेत्र मटरिया गांव में गुरुवार बीती रात अज्ञात चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर दो घरों से लाखों रुपए के जेवराज सहित हजारों रुपए की नकदी पार कर दी परिजन घर के बाहर सो रहे थे।पीड़ितो ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों पर रिपोर्ट दर्ज कराई। मटरिया गांव निवासी राजू रावत अपने परिवार के साथ बरामदे में सो रहा था। अज्ञात चोरों द्वारा पीछे से कमरे की दीवार में सेंध लगाकर कमरे में रखे बक्से से मांग मेहंदी , सोने का हार सहित लाखो रुपए के जेवरात सहित 15 हजार की नकदी पार कर दी।वही 300 मीटर की दूरी पर स्थित प्रेम के घर में छत से चढ़कर घर में दाखिल होकर अज्ञात चोरों ने कमरे से 50 हजार सोने के जेवरात पार कर दिए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी राजेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि जॉच के लिए दरोगा को भेजा गया है।

थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन

अमन लेखनी समाचार

औरास, उन्नाव। थाना प्रभारी रेखा सिंह के द्वारा आगामी त्योहारों के मध्य नजर क्षेत्रीय प्रधानों व सम्माननीय व्यक्तियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें की आगामी त्योहारों में नवरात्रि दशहरा दीपावली आदि को लेकर सबसे अपील की गई कि आगामी आने वाले त्योहार बहुत ही विनम्रता पूर्वक व सावधानी से आपसी सौहार्द के साथ मनाए वहीं इस संबंध में जब थाना अध्यक्ष औरास रेखा सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आगामी त्यौहारो को देखते हुये सम्मानित व्यक्तियों का ग्राम प्रधानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

चिंतन

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बढ़े सुस्ती के खतरे

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्त गति को लेकर चिंता जताई है। आईएमएफ ने चेताया है कि ऊंची ब्याज दरों, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के कारण विश्व अर्थव्यवस्था की चाल धीमी हो रही है। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी होकर 2.9 प्रतिशत रह जाएगी, जिसके इस साल तीन प्रतिशत रहने की उम्मीद है। अगले वर्ष के लिए पूर्वानुमान जुलाई में अनुमानित तीन प्रतिशत से कम है। यह सुस्ती ऐसे समय में आई है, जब दुनिया विनाशकारी कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई झटकों के कारण पिछले तीन वर्षों में दुनियाभर के आर्थिक उत्पादन में कोविड-पूर्व रुझानों की तुलना में लगभग 3,700 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आई है। और अब फिलिस्तीन के कट्टर इस्लामिक चरमपंथी गुट हमास के इजराइल पर आतंकी हमले के बाद जिस तरह इजराइल ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की है और पिछले चार दिन से गाजा पट्टी पर हमले जारी रखे हुए हैं, उसके बाद विश्व में एक और नया मोर्चा खुलता रहा है। इस नए मोर्चे के खुलने से विश्व में एक और विभाजन साफ दिख रहा है, जहां पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन आगे आए हैं और अमेरिका खुलकर मदद कर रहा है, वहीं अरब व पश्चिमी मुस्लिम देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। ईरान व लेबनान के चरमपंथी इस्लामी शिया गुट हिजबुल्ला खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ नीति के चलते भारत इजराइल पर हुए आतंकी हमले का विरोध कर रहा है और इसलिए इजराइल के साथ खड़ा है। भारत भी आतंकवाद से पीड़ित देश है, इसलिए आतंकी हमले की पीड़ा को समझता है। एक तरफ जहां रूस व यूक्रेन जंग साल भर से भी अधिक समय से जारी है और दुनिया खाद्य व तेल आपूर्ति के नए संकट का सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल व हमास में शुरू हुई जंग से मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल के समर्थक देशों के बीच तनाव बढ़ने का असर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। कच्चा तेल उत्पादन व आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। इसलिए आईएमएफ की चिंता के वैश्विक मायने हैं, जो अर्थव्यवस्था के और सुस्त होने के संकेत हैं। विश्व बैंक की बैठक से पहले आईएमएफ का कहना कि पंगु पड़ी विश्व अर्थव्यवस्था अपनी सुस्त गति भी खो रही है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व और दुनियाभर के अन्य केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इससे भी विश्व अर्थव्यवस्था की गति प्रभावित हो रही है। चीन व अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वार से भी अर्थव्यवस्था तनाव में है। हालांकि पश्चिमी देशों व चीन के बीच खाई बढ़ने से भारत वैश्विक आपूर्ति व घरेलू आर्थिक गति के मोर्चे पर अच्छी स्थिति में है। शायद इसलिए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने भारत की 2023-24 की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान मामूली रूप से 0.2 प्रतिशत बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। वहीं आईएमएफ ने 'विश्व आर्थिक परिदृश्य' में चीन के वृद्धि के अनुमान को 2023 के लिए 0.2 प्रतिशत और 2024 के लिए 0.3 प्रतिशत घटाकर क्रमशः 5 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर चीन से अधिक रहने का अनुमान है। इसके बावजूद वैश्विक सुस्ती का भारत पर असर पड़ सकता है।

पांच राज्यों में विस चुनाव

अवधेश कुमार

लोकसभा के लिए मिलेगी दिशा

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभाओं की औपचारिक घोषणा भले ही अब की है, देश पहले से ही चुनावी मोड में है। काफी समय से पूरी राजनीति की रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव के इर्द-गिर्द बनाई जा रही है। लोकसभा चुनावों के पूर्व यही विधानसभा चुनाव हैं और इसके परिणाम कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होंगे। कुल 16 करोड़ 14 लाख मतदाताओं, 679 विधानसभा सीटों तथा 83 लोकसभा स्थानों का महत्व समझना कठिन नहीं है। इन चुनावों के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण के लिए नारी सम्मान वंदन कानून बना दिया है। इन चुनाव में करीब 7 करोड़ 80 लाख महिला मतदाता हैं। यह पता चलेगा कि महिलाओं को आरक्षण देने से ये कितना प्रभावित हैं। यह चुनाव भाजपा, कांग्रेस तथा क्षेत्रीय स्तर पर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के लिए एक हद तक करो या मरो जैसा है। कांग्रेस के लिए इनमें प्रदर्शन से आईएनडीआईए में राष्ट्रीय राजनीति यानी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उसकी हैसियत तय होगी। उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो आईएनडीआईए का नेतृत्व हाथों में आ सकता है। अच्छा नहीं रहा तो आईएनडीआईए में नेतृत्व की दावेदारी तथा सीटों के तालमेल में कमजोर पायदान पर खड़ी रहेगी। भाजपा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की दो विधानसभा चुनावों में लगातार हार के बाद वह अगले पराजय का जोखिम नहीं ले सकती।

> इन चुनावों के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण के लिए नारी सम्मान वंदन कानून बना दिया है। इन चुनाव में करीब 7 करोड़ 80 लाख महिला मतदाता हैं। यह पता चलेगा कि महिलाओं को आरक्षण देने से ये कितना प्रभावित हैं। यह चुनाव भाजपा, कांग्रेस तथा क्षेत्रीय स्तर पर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के लिए एक हद तक करो या मरो जैसा है। कांग्रेस के लिए इनमें प्रदर्शन से आईएनडीआईए में राष्ट्रीय राजनीति यानी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उसकी हैसियत तय होगी। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो इंडिया की कमान उसके हाथ में आ सकती है।

यद्यपि 2018 में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान विधानसभा चुनावों में पराजय के बावजूद 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन राज्यों में एकपक्षीय जीत दर्ज की थी किंतु लगातार पराजयों से पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा होगी तथा विपक्ष मनोवैज्ञानिक लाभ उठा सकता है। प्रश्न है कि क्या इन चुनाव में पार्टियां अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम लाने में सफल होगी? चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी हमेशा जोखिम भरी होती हैं इसलिए इससे बचना चाहिए। हालांकि पिछले चुनावों के प्रदर्शनों ,वर्तमान स्थिति, उम्मीदवार तथा मुद्दों के आधार पर कुछ आकलन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में 2018 चुनाव के बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी जो 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के विद्रोह से खत्म हो गई। किंतु कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। उसे 114 और भाजपा को 109 स्थान मिले थे। भाजपा को कांग्रेस से 47हजार 827 मत भी ज्यादा मिले थे। भाजपा को 41.02% तो कांग्रेस को 40.9% मत मिले थे। यह विचार करने वाली बात है कि 15 सालों के सत्ता विरोधी रुझान, पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान के प्रति थोड़ा बहुत असंतोष तथा अनेक विरोधी मुद्दों के बावजूद अगर भाजपा बुरी तरह पराजित नहीं हुई तो क्या 2023 में स्थिति उससे ज्यादा खराब है ? राजस्थान में भी कांग्रेस बहुमत से पीछे 99 पर अटक गई थी तथा भाजपा को 73 सीटें मिली थीं। कांग्रेस 39.30 प्रतिशत तो बीजेपी 38.08% मत पायी थी। दोनों के बीच केवल 1 लाख 77हजार 699 मतों का ही अंतर था। हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने

भाजपा को बुरी तरह पराजित किया था। 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 68 तथा भाजपा को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस के 43.04 प्रतिशत वोटो के मुकाबले भाजपा को 33% आए थे। यानी 13 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर था। तेलंगाना के 119 सीटों में तत्कालीन टीआरएस और वर्तमान बीआरएस ने 88, कांग्रेस ने 19 और भाजपा ने एक तथा एआईएमआईएम ने 7 सीटें प्राप्त की थी। भाजपा की स्थिति यहां काफी बुरी थी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26, कांग्रेस ने पांच, भाजपा ने एक तथा अन्य ने 8 सीटें जीती थी।

किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले जरा चार महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव परिणामों को भी देख लीजिए। मध्यप्रदेश के 29 में से भाजपा ने 28 तो कांग्रेस ने एक, राजस्थान के 25 में से भाजपा ने 24 सीटें जीती और कांग्रेस एक स्थान भी जीत नहीं पाई, एक सीट आरएलपी को गया। छत्तीसगढ़ के 11 में से भाजपा ने 9, कांग्रेस ने दो सीटें जीतीं। जिस तेलंगाना में भाजपा का केवल एक विधायक जीता वहां लोकसभा में उसके चार सांसद जीते, कांग्रेस 3 और बीआरएस के 9, एमआईएमआईएम के एक सांसद जीते। मिजोरम की एक सीट एमएनएफ के खाते गई। मतों के अनुसार देखें तो राजस्थान में भाजपा को 58.47 प्रतिशत जबकि कांग्रेस को 34.24% मत है। यानी 24 प्रतिशत मतों की खाई। मध्यप्रदेश में भाजपा को 58% और कांग्रेस को 32.50% मत आया। यानी 26 प्रतिशत का अंतर है । छत्तीसगढ़ में भी भाजपा को 50.7 प्रतिशत एवं कांग्रेस को 40.90 प्रतिशत मत मिले। लगभग 10% से बीजेपी आगे है। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में बीआरएस ने 41.2%, कांग्रेस ने 29.4 8% तो भाजपा ने 19.45% वोट पाए। यानी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद मिजोरम को छोड़ चार राज्यों में उसी अनुरूप लोकसभा में नहीं रहे।

यह सच है कि इस समय भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में अपने राज्य सरकारों और वहां के नेतृत्व के विरुद्ध असंतोष एवं गुस्सा है क्योंकि शासन में उनकी व्यापक अनदेखी हुई है। हजारों की संख्या में इनके निष्ठावान कार्यकर्ता और समर्थक अपने जीवन में आज भी उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं जैसे सत्ता में आने के पहले और बड़ी संख्या में वैसे लोग सत्ता का लाभ उठाया जो या तो विरोधी थे या जिनकी निष्ठा संदिग्ध थी। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद या विचारधारा निश्चित रूप से भाजपा के अंदर असंतोष और गुस्सा होते हुए भी कार्यकर्ताओं -समर्थकों को विद्रोही होने से बचाता है लेकिन एक समय के बाद लोगों का धैर्य टूटता है। जनता के अंदर किसी राज्य में भाजपा के विरुद्ध व्यापक गुस्सा नहीं है। किंतु कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे या विरोध में चले जाएंगे तो विजय मुश्किल होता है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक इसका उदाहरण है। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में माहौल बना कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार वापस नहीं आई तो मुस्लिमों और अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा, जिस कारण असंतोष और नाराजगी रहते हुए लोगों ने मतदान किया। यह हिमाचल और कर्नाटक में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, उनके प्रति कार्यकर्ताओं - समर्थकों का विश्वास भी है। किंतु वे जताना चाहते हैं कि राज्यों के नेता उनके विचारों और नीतियों के अनुरूप संगठन और सरकार का संचालन नहीं करते।

इस दृष्टि से देखे तो कांग्रेस के पास विजय का अवसर है। जाति गणना विपक्ष का मुद्दा होगा किंतु मतदाता इस पर मतदान करेंगे और शेष मुद्दे विकास, विदेश नीति, रक्षा, धर्म -संस्कृति, हिंदुत्व , सुरक्षा, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी, भारत को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने वाली उनकी छवि आदि की अनदेखी करेगा ऐसा मानने का कारण अभी नहीं दिखता है, पर भविष्य तो जनता के हाथ में है।

जन्मदिन पर विशेष

आर. के. सिन्हा

क्यों अमिताभ बच्चन कृतज्ञ हैं अपने अनाम गुरु के प्रति

अमिताभ बच्चन ने जब अपने फिल्मी करियर का श्रीगणेश किया तब 1970 के दशक का आरंभ हो रहा था। तब भारत में इंदिरा गांधी प्रधनामंत्री थीं और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। वो आधी सदी पहले की दुनिया आज से हर मायने में अलग थी, पर इन पचास सालों में बहुत कुछ बदला, पर अमिताभ बच्चन अब भी करोडों सिने प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं। उन्होंने इस दौरान न जाने कितनी सुपर हिट फिल्में दीं, टीवी पर अपनी धाक जमाई और विज्ञापन के संसार के शिखर पर भी रहे। कुछ समय तक राजनीति करने के बाद उसे इस तरह से छोड़ा कि फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वकालिक महानतम अभिनेता माना जा सकता है। अमिताभ ने अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, तीन राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और बारह फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फ़िल्मफेयर अवार्ड का रिकार्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्वगायक, फ़िल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी है। वे लोकप्रिय टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में कई वर्षों से मेज़बान की भूमिका भी निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया 'देवियों और सज्जनों' संबोधन बहुचर्चित रहा। अमिताभ बच्चन की शख्सियत से आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज (11 अक्तूबर) को उनके जन्मदिन पर हम उस शख्स की बात करना चाहेंगे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और फिर गढ़ा भी। बेशक, वे भी इस मौके पर उन शख्सियतों को जरूर याद करेंगे जिनके मार्गदर्शन के चलते उन्होंने शिखर को छुआ। वे दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज (केएम कॉलेज) के अपने गुरु फ्रेंक ठाकुर दास को नहीं

भूल सकते। वहां पर फ्रेंक ठाकुर दास सभागार मिलेगा। अमिताभ बच्चन 1962 में केएम कॉलेज में बीएससी के छात्र थे। तब तक उनका एक्टिंग या रंगमंच की तरफ कोई विशेष रूझान नहीं था, पर एक दिन फ्रेंक ठाकुर दास ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि वे कॉलेज की रंगमंच की गतिविधियों से जुड़ें। यह बात अमिताभ बच्चन ने केएम कॉलेज के एक कार्यक्रम में खुद बताई थी। उसके बाद फ्रेंक ठाकुर दास ने उन्हें कॉलेज की ड्रामा सोसायटी की तरफ से होने वाले अंग्रेजी और हिन्दी के नाटकों से जोड़ा। उन्होंने ही अमिताभ बच्चन को अभिनय की तमाम बारीकियों से रुबरु भी करवाया। दिल्ली विश्व विद्यालय और केएम कॉलेज बिरादरी फ्रेंक ठाकुर दास को अपने संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में याद करती है। वैसे तो फ्रेंक ठाकुर दास केएम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। उन्हें रंगमंच की दुनिया की भी गहरी समझ थी। वे खुद भी रंगकर्मी थे। केएम कॉलेज में होने वाले नाटक, डिबेट और अन्य खास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। अमिताभ बच्चन ने अभिनय और रंगमंच का पहला पाठ फ्रेंक ठाकुर दास से ही सीखा था। फ्रेंक ठाकुर दास पंजाबी ईसाई थे। उन्होंने अपने कॉलेज में ड्रामा सोसायटी की स्थापना की थी। वे केएम कॉलेज से लगभग चार दशकों तक जुड़े रहे। फ्रेंक ठाकुर दास अपनी कक्षाएं समाप्त करने के बाद अपने ड्रामा कल्ब की गतिविधियों में व्यस्त हो जाते थे। सुबह से देर शाम तक छात्रों के बीच में रहा करते। फ्रेंक ठाकुर दास के कृतज्ञ छात्रों ने कुछ समय पहले उनके नाम पर बन रहे सभागार के निर्माण के लिए दिल खोलकर सहयोग दिया था। अमिताभ बच्चन ने खुद इस नेक काम के लिए 51 लाख रूपये की सहयोग राशि दी थी। फ्रेंक ठाकुर दास के खास शार्गिदों में सतीश कौशिक, कुलभूषण खरबंदा, शक्ति कपूर, दिनेश ठाकुर जैसे बॉलीवुड के बड़े नाम भी रहे। ये सब भी केएम कॉलेज में ही पूर्व छात्र रहे थे। उन्होंने इन सबको भी अभिनय, निर्देशन, मंच सज्जा आदि की जानकारी दी। फ्रेंक ठाकुर दास की शख्सियत बहुआयामी थी। वे इंग्लिश के भी विद्वान थे। राजधानी में देश के बंटवारे के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने कैंप कॉलेज खोला था।

लोकहित में त्याग करने वाले मानव ही बनते हैं संत

संकलित

दर्शन

सब कुछ क्षणिक होते हुए भी इस जगत की अनंत यात्र का कभी अंत नहीं होता। यह अनवरत गतिमान रहती है। वास्तव में त्याग की पवित्र भावना ही इसकी गतिशीलता और जीवंतता का कारण है। इसलिए जिन गुणों से मानव जीवन महान बनता है, त्याग उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे-शीतलता के बिना जल, दाहकता के बिना अग्नि, स्पर्श के बिना वायु का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार त्याग के बिना मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं, परंतु त्याग वही सार्थक है, जो परार्थ के लिए हो। स्वार्थ के लिए त्याग तो पशु-पक्षी भी करते हैं। इसीलिए निःस्वार्थ भाव से लोकहित में त्याग करने वाले मानव संत बन जाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में त्याग को शांति का प्रदाता कहा गया है, परंतु इसके विलक्षण आनंद का अनुभव कोई विरला ही कर सकता है। वस्तुतः त्याग का जन्म उदारता से होता है, क्योंकि औदार्य भाव ही मनुष्य को स्वार्थ और मोह से मुक्तकर परार्थ के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उदारता का भाव जिसमें जितना प्रबल होगा, त्याग की भावना भी उतनी ही प्रबल होगी। कल्पना कीजिए कि महर्षि दधीचि में उदारता का भाव कितना प्रबल रहा होगा, जिससे उन्होंने जीवित रहते ही लोक कल्याणार्थ शरीर त्याग करने का निर्णय लिया। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि जीवन रक्षक कवच का दान करने से उसके प्राणों पर संकट निश्चित है, उसे सहर्ष काटकर याचक को समर्पित कर दिया। उदारता के बिना यह कदापि संभव नहीं था।

पांच मिनट का जीवन

संकलित

प्रेरणा

एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गये वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी माँगा, बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आये हैं लेकिन चूँकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह, वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा वत्स तुम्हारा पांच मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था।

अंतर्मन

आज की पाती

इजराइल-हमास युद्ध से बढ़ेगा तनाव

अगर इजरायल और फिलीस्तीन में शांति नहीं होती है, तो इससे सबसे बड़ा लाभ अमरीका को होगा। अमरीकी डॉलर महंगा होगा। साथ ही दूसरे देशों की करेंसी डूबेगी। लोग शेयरों से निकल कर सोने-चांदी जैसी सालिड करेंसी का रुख करेंगे। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी और बढ़ेगी। इजरायल आधुनिक हथियारों से लैस है। जाहिर है उसके पास जैविक हथियार भी होंगे। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लड़ाकों ने दुनिया का सबसे मजबूत टैंक, जिसे कोई मिसाइल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इजरायल के उस टैंक को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने देखा। इजरायल जैविक हथियारों का प्रयोग कर सकता है। बहरहाल, अमरीका इस आपदा में भी अवसर तलाश रहा है व उसका मकसद कमाई करना है।

- सचिन महाजन, दुर्ग

ट्रेंड

नेतन्याहू को धन्यवाद

मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं उनके फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इजराइल के साथ

इजराइल पर आतंकवादी हमलों से सभी अमेरिकियों को भयभीत और क्रोधित होना चाहिए। हम उन लोगों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं जिन्हें बंधक बना लिया गया है, और हमास को खत्म करने के लिए इजराइल के साथ खड़े हैं।

-बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति यूएस

शानदार प्रदर्शन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को देखकर मैं हैरान रह गया। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें 199 रन पर रोक दिया। विराट और राहुल के बीच साझेदारी ने हमारे लिए मैच जीत लिया। शानदार प्रदर्शन।

-सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर

हम क्या प्रमोट करेंगे

आज देश की राजधानी दिल्ली में शानदार फिल्म तेजस का प्रमोशन। जबकि सच्चाई तो ये है कि वास्तव में तेजस जैसी फिल्म हम सब भारतियों को प्रमोट करते हैं। नया जोश भरती है। हम इसको क्या प्रमोट करेंगे। जय भारत।

-कंगना रनौत, अभिनेत्री

करंट अफेयर

जोहान्सबर्ग में गांधी की प्रतिमा का अनावरण

दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग के टॉलस्टॉय फार्म में महात्मा गांधी की आठ फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गांधी ने 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में यहां एक वकील के तौर पर काम करने के दौरान इस आश्रम की स्थापना की थी।

भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने रविवार को इस आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कुमार ने प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान कहा, ''यह प्रतिमा संभवतः महात्मा गांधी की तब की झलक दिखाती है जब वह दक्षिण अफ्रीका छोड़कर गए थे। हमने 1914 की महात्मा गांधी की तस्वीरें देखी हैं और यहां वह कहीं ज्यादा बड़े लग रहे हैं। मुझे लगता है

ऑफ बीट

चावल, गेहूं, मक्का की फसलों से 40 प्रतिशत भूभाग कवर

घास पौधों के सबसे महत्वपूर्ण समूहों में से एक है और इसमें चावल, गेहूं और मक्का जैसी फसलें शामिल हैं। वे पृथ्वी के लगभग 40 प्रतिशत भूभाग को कवर करते हैं और मानव कैलोरी सेवन का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। घास की प्रजातियों के बीच क्षैतिज जीन स्थानांतरण जंगली और खेती वाली प्रजातियों में समान रूप से पाया गया है। जबकि हम जानते हैं कि ये स्थानांतरण प्रजातियों के जीनोम (एक कोशिका में डीएनए निर्देशों का पूरा सेट) में छोड़े गए निशानों से होते हैं, हम अभी भी इसके पीछे के तंत्र को नहीं जानते हैं। न ही हम जानते हैं कि ऐसा कितनी बार होता है

संक्षेप

मिल्कीपुर में दो बाइकों में आमने सामने की टक्कर

महिला समेत चार घायल, 2 मेडिकल कॉलेज रेफर, अयोध्या-रायबरेली हाइवे पर हुआ हादसा

मिल्कीपुर, मिल्कीपुर में अयोध्या रायबरेली हाइवे पर पटखौली तिराहे पर दो बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में दो बाइक पर सवार एक महिला सहित चार लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आमने-सामने की भिड़ंत में दोनों बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अशोक कुमार पुत्र नाथूराम व अजय पुत्र नगऊ निवासी अलीपुर खजूरी पूरे चौका सूबेदार बाइक पर सवार होकर बारुन से चमनगंज की तरफ विपरीत दिशा से आ रहे थे। तभी चमनगंज से बारुन की तरफ जा रही दूसरी बाइक पर सवार इमरान पुत्र अजमत व अफसाना पत्नी फहीम निवासी बलक्सर मेहदौंना आ रहे थे। दोनों बाइक बारुन चौकी के पटखौली तिराहे पर पहुंची ही थे तभी आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला सहित चार लोग घायल हो गए तथा बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बारुन चौकी प्रभारी उमेश कुमार वर्मा पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। क्षतिग्रस्त बाइकों को हिरासत में लिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख एक महिला और एक पुरुष को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। चौकी प्रभारी उमेश कुमार वर्मा ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। क्षतिग्रस्त बाइक को चौकी पर लाया गया। अभी मामले में किसी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

नंदनी नगर पीजी कॉलेज गोंडा ने जीता फाइनल मुकाबला

संत भीखादास रामजस पीजी कॉलेज में चल रहे दो दिवसीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का समापन

मिल्कीपुर, अमानीगंज के संत भीखादास रामजस स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोहली में आयोजित दो दिवसीय अंतर महाविद्यालयी पुरूष कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नंदिनी नगर पीजी कॉलेज गोंडा की टीम ने जीता। डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव डॉ आशीष प्रताप सिंह ने विजेता उपविजेता टीमों को ट्राफी व पुरस्कार प्रदान किया। प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों की 14 टीमों ने हिस्सा लिया। पहला सेमीफाइनल मुकाबला एलबीएस पीजी कालेज गोण्डा और राजा देवी बक्श अवधराज सिंह पीजी कालेज गोण्डा के बीच खेला गया।

एकतरफा मुकाबले में राजा देवी बक्श अवधराज सिंह पीजी कालेज की टीम ने 12-38 के अंतर से जीत दर्ज की। दूसरा सेमीफाइनल नंदनी नगर पीजी कॉलेज गोण्डा और आर आर पीजी कॉलेज अमेठी के बीच खेला गया।

मदनी इंटर कालेज में तीन दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण का हुआ समापन

अमन लेखनी समाचार

कैसरगंज, बहराइच। कैसरगंज स्थित मदनी इंटर कालेज में भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के तत्वाधान में आयोजित प्रथम सोपान प्रशिक्षण शिविर का समापन आज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आनन्द कुमार यादव विधायक कैसरगंज, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी दाता राम मौर्या रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक हाजी रईस अहमद कासमी ने किया।कार्यक्रम का संचालन कल्लन इदरीसी जिला संगठन आयुक्त स्काउट ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ॰ अरशद रईस ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवम् प्रबन्धक को माला पहनाकर स्वागत किया साथ ही साथ अंग वस्त्र भेंट किया। सभी अतिथियों ने बच्चों के द्वारा बनाए गए टेंट एवम् हस्त निर्मित चीजों का निरीक्षण किया एवम् उत्साह वर्धन किया। मुख्य अतिथि आनन्द कुमार यादव विधायक कैसरगंज ने बच्चों को अनुशासन का महत्व बताया। बच्चो द्वारा बनाए गए टेंट, हस्त निर्मित चीजों एवम बिना बर्तन के बने स्वादिष्ट भोजन को देख कर स्काउटिंग गाइडिंग को जीवन जीने की कला कहा, साथ ही साथ आशीर्वाद दिया।विद्यालय के प्रबंधक हाजी रईस अहमद द्वारा शिक्षा एवम् स्वास्थ क्षेत्र में किए गए कार्यों की भूरि भूरि प्रसंशा करते हुये कहा की वह हमारे क्षेत्र के सर सैय्यद हैं, इन्होंने हमारे क्षेत्र में इस इंटर कॉलेज के साथ उस्मानिया इस्लामिक स्कूल एवम् मदरसा दारुस्सलाम की स्थापना किया एवं उत्तम स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये मदनी हॉस्पिटल की स्थापना किया जहाँ क्षेत्र के ऐसे गरीब एवम् असहाय लोगों को भी उत्तम स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं जिनका इलाज बड़े शहरों एवम् सरकारी अस्पतालो में निर्धनता के कारण नहीं हो पाता है। विशिष्ट अतिथि दाता राम मौर्या ने अपने वक्तव्य में बच्चों द्वारा भारत के महान विभूतियों के नाम पर अपने टोलियों का नामकरण करने की सराहना की एवम् बच्चों को उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों को बताया कि स्काउटिंग/गाइडिंग बच्चों में देश सेवा एवम्समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है साथ ही साथ बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाती हैं। प्रशिक्षक के रूप कायमा इस्लाम जिला संगठन आयुक्त गाइड ने प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को प्राथमिक उपचार, सहायता, वर्दी, सीटी के संकेत, खोज के चिन्ह, गांठ बन्धन एवम्टेंट लगाना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

भव्य शोभा यात्रा के साथ ब्लाक मुख्यालयों पर पहुंचे अमृत कलश

- मिहींपुरवा में विधायक सरोज सोनकर, प्रतिनिधि आलोक जिंदल व ब्लॉक प्रमुख सौरभ वर्मा हुए शामिल
- मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आयोजनअमन लेखनी समाचार

अमन लेखनी समाचार

बहराइच।आजादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ह्यमेरी माटी मेरा देश अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायतों से मिट्टी संग्रहण कर अमृत कलश विकास खण्ड जरवल, कैसरगंज, फखरपुर, हुजूरपुर, विशेश्वरगंज, पयागपुर, चित्तौरा, रिसिया, मिहींपुरवा, नवाबगंज, महसी व तेजवापुर के मुख्यालय पर पहुंचने पर झण्डारोहण एवं राष्ट्रगान का समूह गायन, पंच-प्रण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/शहीद परिजनों का सम्मान, सेल्फी अपलोड किया जाना, कलश शोभा यात्रा, पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रधुन का वादन तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा मौलिक रचनाओं की राष्ट्रभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।विकास खण्ड महसी व तेजवापुर में विधायक महसी सुरेश्वर सिंह, हुजूरपुर में विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, चित्तौरा में विधायक सदर अनुपमा जायसवाल, मिहींपुरवा में विधायक बलहा सरोज सोनकर व नानपारा राम निवास वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ ही क्षेत्रीय लोग भी शामिल हुए।

जनपद स्तरीय टीम ने खाद की दुकानों का किया निरीक्षण

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। बांगरमऊ में जिला निरीक्षक के नेतृत्व में जनपद स्तरीय टीम द्वारा नगर की खाद दुकानों का निरीक्षण किया गया इस दौरान अवैध रूप से स्टॉक पाए जाने पर एक दुकान को सील कर दिया गया जिला निरीक्षक कुलदीप मिश्रा के नेतृत्व में जनपद स्तरीय टीम शुक्रवार को शाम पहर बांगरमऊ नगर के संडीला रोड पहुंची जहा टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया इस दौरान नवीन मंडी स्थल गेट के निकट संचालित गणेश ट्रेडिंग कंपनी नामक दुकान पर 320 बोरी डी ए पी खाद टीम को मिली जिसकी जानकारी दुकानदार द्वारा नही दी जा सकी जिससे इस खाद को अवैध कारोबार के रूप में संलिप्त पाए जाने पर टीम ने आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण कर दुकान पर ताला लगवाकर सील कर दिया गया। टीम

की इस कार्यवाही से तमाम दुकानदारों में हड़कंप मचा गाय लोग दुकानें बंद कर इधर उधर खिसक लिए टीम के चले जाने के बाद दुकानदार ने राहत की सांस ली।

मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ब्लाक मुख्यालयों पर पहुंचे अमृत कलश

अमन लेखनी समाचार

बहराइच। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ह्यमेरी माटी मेरा देशह्ण अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायतों से मिट्टी संग्रहण कर अमृत कलश विकास खण्ड जरवल, कैसरगंज, फखरपुर, हुजूरपुर, विशेश्वरगंज, पयागपुर, चित्तौरा, रिसिया, मिहींपुरवा, नवाबगंज, महसी व तेजवापुर के मुख्यालय पर पहुंचने पर झण्डारोहण एवं राष्ट्रगान का समूह गायन, पंच-प्रण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/शहीद परिजनों का सम्मान, सेल्फी अपलोड किया जाना, कलश शोभा यात्रा, पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रधुन का वादन तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा मौलिक रचनाओं की राष्ट्रभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

विकास खण्ड महसी व तेजवापुर में विधायक महसी सुरेश्वर सिंह, हुजूरपुर में विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, चित्तौरा में विधायक सदर अनुपमा जायसवाल, मिहींपुरवा में विधायक बलहा सरोज सोनकर व नानपारा राम निवास वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि 12 अक्टूबर को विकास खण्ड शिवपुर व बलहा में विधायक बलहा सरोज सोनकर व नानपारा राम निवास वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रमो का आयोजन किया गया।

वीर शहीदों के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता: सुभाष त्रिपाठी

मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत निकली कलश यात्रा

अमन लेखनी समाचार

पयागपुर/बहराइच। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बुधवार को विशेश्वरगंज ब्लॉक परिसर में 75 ग्राम पंचायतों की मिट्टी गाजे-बाजे के साथ कलश यात्रा के रूप में लाई गई। यहां सभी ने वीर सपूतों को नमन किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी व ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि राकेश पाण्डेय ने वीर बलिदानियों को नमन कर उनके विचारों को साझा किया। साथ ही पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर घर के आंगन से लाई गई इस मिट्टी को लखनऊ से दिल्ली भेजा जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि वीर शहीदों के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता है, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष धनुही राज कुमार शुक्ल, संजीव तिवारी, मनोज शुक्ल, धनलाल पांडेय, अमूल गिरी प्रधान, भारत सिंह, पुत्ती बाबा, बच्चन चौहान, बीडीओ सर्वेश तिवारी, ग्राम सचिव महावीर प्रसाद मंडल, अरुण कुमार पांडेय सहित ब्लाक के सभी कर्मचारी व भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे।

गोवंश के शव को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर से घसीटा

- डीएम ने सचिव को किया सस्पेंड, प्रधान से मांगा स्पष्टीकरण; सौराई गोशाला का मामला

अमन लेखनी समाचार

सुलतानपुर, सुल्तानपुर की भदैंया ब्लॉक अंतर्गत सौराई गोशाला में गोवंशों के शवों को रस्सी से बांध कर ट्रैक्टर से घसीटने का वीडियो वायरल होने के मामले में शासन के निर्देश पर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम कृतिका ज्योत्सना ने ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड करते हुए एडीओ पंचायत कादीपुर को जांच सौंपा है। वहीं प्रधान से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीते शुक्रवार को भदैंया के सौराई गोशाला में ट्रैक्टर से मृत गोवंश की खींचते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को संज्ञान लेते हुए डीपीआरओ अभिषेक शुक्ला गौशाला पहुंचे थे और जिम्मेदारों से पूछताछ की थी। उन्होंने एडीओ पंचायत सतीश श्रीवास्तव, पंचायत सचिव नितेश सिंह, गोशाला संचालक को जमकर खरी खोटी सुनाई थी और कार्रवाई का संकेत दिया था। उन्होंने दो केयर टेकर को हटा भी दिया था। मामले में ग्राम प्रधान और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई थी। जिला पंचायत अधिकारी ने कहा था कि ट्रैक्टर से मृत पशुओं का शव घसीटना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है, जवाब मिलने के संबंधित दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। उधर आज डीएम ने मामले का संज्ञान लेकर ग्राम विकास अधिकारी नितेश सिंह को सस्पेंड किया है।

एडीओ पंचायत कादीपुर को जांच सौंपी है। मामले में ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। ग्राम प्रधान को 15 दिनों के भीतर डीपीआरओ कार्यालय में स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी हुआ है। संतुष्ट न होने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

गायघाट से एक किलो बीस ग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधियों के खिलाफ चलता रहेगा अभियान: प्रभारी निरीक्षक

अमन लेखनी समाचार

मोतीपुर, बहराइच। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे के निर्देशन में थाना प्रभारी श्रीधर पाठक के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक किलो व 20 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गायघाट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान छोटू सोनी पुत्र कैलाश सोनी उम्र 25 वर्ष निवासी चिकमंडी रेलवे क्रॉसिंग मिहींपुरवा थाना मोतीपुर के रूप में हुई। प्रभारी निरीक्षक मोतीपुर श्रीधर पाठक ने बताया कि अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है।उन्होंने यह भी बताया कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहेगा। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक हरिद्वार तिवारी ,सिपाही विकास गोंड शामिल रहे।

ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा दुकानों का किया औचक निरीक्षण

अमन लेखनी समाचार

रूपईडीहा, बहराइच। औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण ने इंडो नेपाल सीमा स्थित कस्बा रूपईडीहा स्थित चार मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवाओं के लिए जरूरी लाइसेंस, रखरखाव, एक्सपायरी तिथि की दवाएं और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठानों से अधोमानक स्तर की दवाएं होने के संदेह में जांच के लिए सैंपल भी लिया गया, साथ ही दवाओं के रखरखाव, स्टोर में साफ सफाई व शेड्यूल एच, एच-1 की औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल के लगे सीसीटीवी कैमरा की भी जांच की, साथ ही यह भी कहा है कि अगर किसी भी दुकान पर नशीली दवाओं पाई गई कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

बहराइच। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्न पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी हेतु शादी अनुदान योजना अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइड बैकवर्ल्डवेलफेयरयूपी डाट जीओवी डाट इन पर दिये गये लिंक शादीअनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते है। उन्होनें बताया कि शादी हेतु अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा शादी तिथि के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन के अन्दर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदक की बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति, शादी का कार्ड, पुत्री का फोटो, आधार कार्ड, वर-वधु के आयु प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल इत्यादि अभिलेख आवश्यक है। आवेदक का तहसील स्तर से जारी जाति एवं आय प्रमाण पत्र, आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रुपए 46080 एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 56460 वार्षिक से अधिक न हो। पेंशन, आईडी क्रमांक आवश्यक है। आवेदन आनलाइन के करने के पश्चात आवेदन की हार्डकापी, आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठा, निशानी सहित सम्बन्धित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय में समस्त संलग्नों को जमा किया जायेगा।

अघोषित बिजली कटौती से किसान एवं उपभोक्ता परेशान

- अधिकारी बोल रहे ऊपर से हो रही कटौती, बिजली आने के इंतजार में नलकूपों पर बैठे रहते हैं किसान

अमन लेखनी समाचार

मिल्कीपुर, मिल्कीपुर के विद्युत उपकेंद्र इनायत नगर, अमानीगंज, कुमारगंज, तुरश्मपुर, खड़बड़ियां, पिठला सहित अन्य उप केंद्रों पर पिछले सप्ताह से लगातार बिजली की अघोषित कटौती से विद्युत उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आने और जाने का रोस्टर समझ में नहीं आ रहा है। गंभीर यह है कि कटौती होते ही अवर अभियंता से लेकर लाइनमैन तक का मोबाइल बंद हो जाता है। कृषक रमाकांत पाण्डेय, दयाराम, एमपी यादव, हनुमान प्रसाद, राम जियावन, राम कुमार मौर्या, देवदत्त शुक्ला राम आशीष यादव, महेंद्र यादव, ललित कुमार पाण्डेय, हनुमान पाण्डेय, रनजीत सिंह भदोरिया, भूपेंद्र प्रताप सिंह, अयूब ,त्रिवेणी, रजाक, सतीश तिवारी सहित अन्य का कहना है कि बीते 24 घंटे में लगभग 7 से 8 घंटे ही बिजली मिल पाई है। वह भी दर्जनों पर बिजली की कटौती के बाद। किसान बिजली आने के इंतजार में नलकूपों पर बैठे रहते हैं। सिंचाई तक नहीं हो पा रही है।

गांवों से लेकर नगरीय क्षेत्रों में व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में कटौती होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात में मात्र तीन घंटे ही बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाई है। उसमें भी लगातार कटौती होती रहती थी। जिसके चलते लोगों के घर में लगी तो करा डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके साथ ही कुमारगंज फीडर कि विद्युत सप्लाई में फाल्ट आ गई है। बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाबत जानकारी के प्रयास पर अधिकारियों के सेल फोन स्विच ऑफ रहते हैं। अगर किसी तरीके से अधिकारियों से बात भी हो जाती है तो ऊपर से विद्युत कटौती होने की बात बताई जाती है तथा बताया जाता है कि विद्युत उत्पादन में कमी है।

कलेक्शन एजेंट से हुई 1.75 लाख लूट का पदार्फाश

लूट की रकम और अवैध असलहा समेत 3 गिरफतार, जेल भेजे गए

अमन लेखनी समाचार

अयोध्या, अयोध्या जिले की कोतवाली रूदौली पुलिस ने रोजागांव -अलियाबाद मार्ग पर हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज की मदद से खुलासा कर लूट के 1.75 लाख रुपए, घटना में प्रयुक्त बाइक, असलहा बरामद कर लिया है।अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। कोतवाली रूदौली पुलिस ऑपरेशन दृष्टि के तहत सीसीटीवी फुटेज की मदद से कलेक्शन एजेंट से हाल ही में हुई लूट का खुलासा कर दिया है।जिसमें पुलिस ने तीन लुटेरे अंकित यादव पुत्र अमर बहादुर यादव निवासी डिहवा जसरपुर, अखिल प्रकाश मिश्रा पुत्र दान बहादुर मिश्रा, बृजेश कुमार पाल पुत्र राम तीरथ पाल निवासी कृष्णा नगर मलेथु बुजुर्ग को सोमवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रुदौली देवेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक विनय यादव, इश्हाक खान, शेखरनाथ, हेड कांस्टेबल अशोक यादव, का अनुज यादव, मो ताहिर खान, पंकज यादव, रवि कुमार, पिंटू यादव, शैलेश त्रिवेदी, अभिषेक कुमार, ताबिश आलम सहित आदि मौजूद रहे।

एरिया बंटवारे को लेकर भिड़े किन्नरों के दो गुट

- बीच सड़क पर हुई मारपीट, कई थानों के फोर्स बुलाना पड़ा, सड़क पर लगा रहा जाम

अमन लेखनी समाचार

सुलतानपुर, योगी सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन कर रखा है। इसकी उपाध्यक्ष सोनम किन्नर सुल्तानपुर की हैं। यही के किन्नर ही सरकार के लिए किरकिरी का सबब बन रहे हैं। दोस्तपुर क्षेत्र में एरिया बंटवारे को लेकर किन्नरों के दो गुट सड़क पर उतर आए। मामला इतना तूल पकड़ा की कई थानों के फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। अंत में दोनों पक्ष से मुकदमा कायम हुआ है। दोस्तपुर कस्बे में अम्बेडकर नगर की किन्नर बबिता ग्रुप और इस समय कस्बे मे रहने वाली मधु काजल के बीच एरिया को लेकर गरमा गरमी पहले से चली आ रही है। सोमवार की रात ये मामला तूल पकड़ गया और दोनों गुट में जमकर मारपीट हुई। बबिता का कहना है की दोस्तपुर कि जाजमानी हमारी है। उनके साथ दर्जनों की संख्या में लखनऊ से किन्नर किन्नर आई थीं। जवाब में मधु काजल का कहना है कि अगर असली मनीषा के चेले हैं तो मनीषा के मरने के बाद उनका मकान हमें कैसे मिला और कैसे वहां हम कुछ महीने से रह रहे हैं। मकान छोटा होने के कारण मैंने उसे बेचा और वहीं कस्बे में ही दो बिस्वा जमीन खरीद ली। वहीं ब्लॉक चौराहे और आसपास कस्बे के लोग मधु काजल का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों गुट दोस्तपुर ब्लॉक चौराहे पर उतर आए और दोनों गुटों में मारपीट हुई। इससे घंटो यातायात मार्ग बाधित रहा। कई थाने की फोर्स बुलाने की नौबत आ गई। राहुल नगर पुलिस चौकी, थाना अखंड नगर, थाना कादीपुर की पुलिस बुलाई गई। आधी रात को कादीपुर क्षेत्राधिकारी शिवम मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके विवाद से होता रहा तो दुर्गा पूजा मेले में दशार्कों के साथ बड़ी घटना हो सकती है।

संक्षेप

फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवती का शव



अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवां थाना क्षेत्र स्थित के नगर पंचायत घघसरा के वार्ड जगदीशपुर- के मोहल्ला जगदीशपुर (गाही) में बीते गुरुवार की देर रात लड़की का शव नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला है। उसकी पहचान मोहल्ला निवासी शिवागीं 18 वर्ष पुत्री राजेश के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची घघसरा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।शिवागीं का शव भूरे रंग की छींटदार साड़ी के फंदे से घर के पास नीम की पेड़ से लटका हुआ था। लोगों ने जब देखा तो घटना की सूचना पुलिस को दी।मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।मृत शालिनी दो भाई तथा इसे लेकर दो बहन थी, जिसमें यह सभी से बड़ी थी। उक्त संदर्भ में चौकी प्रभारी घघसरा अवधेश पाण्डेय ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घर वालों की तरफ से तहरीर नहीं दी गई है।

आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट में हुई कार्यवाही

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। राजस्व पुलिस ने आरोपित को करने में लगी हुई है।आरोपित के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए अब बड़हलगंज पुलिस इस मामले पर अग्रिम कार्रवाई कर रही है।मुकदमा संख्या 19/21 धारा 366,376 3/4 पास्को एक्ट तहत बड़हलगंज थाना में वांछित अमन वर्मा पिता हरिसरन अहिरौली गांव के रहने वाले के घर पर उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार गौतम ने धारा सीआरपीसी नोटिस चस्पा करते हुए आगे की गई विधिक कार्यवाही की गई।

सर्पदंश से हुई युवक की मौत

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर। जनपद फतेहपुर के थाना किशनपुर के सरौली गांव मे शुक्रवार को सर्प दंश से एक युवक की मौत हो गई आनन फानन में परिजनों ने किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया।जब हालत में कोई सुधार न हुआ तो उसके पारिवारिक जन उसे कानपुर ले जाने लगे तभी रास्ते में ही युवक ने दम तोड दी जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सरोली गांव निवासी सुंदर का 40 वर्षी पुत्र जकशेन को 2 दिन पूर्व किसी जहरीले सांप ने काट लिया था जिसका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था हालत में कोई सुधार होते ना देख परिजन बीती रात कल शाम को कानपुर लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई मौत की सूचना पाते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया वहीं पारिवारिक जनों का रो-रो कर बुरा हाल रहा।

फूड विभाग ने खाद्य कारोबारियो को दिया प्रशिक्षण

न्यू एनएक्सी भवन में आयोजित हुआ फोस्टैक ट्रेनिगं कैम्प

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा रामगढ़ताल क्षेत्र के न्यू एनएक्सी भवन में फोस्टेक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें दिल्ली से आई ट्रेनर इकरा फातिमा और अभिषेक मेहता उपस्थित रहे। इस दौरान ट्रेनर ने मौजूद खाद्य कारोबारी को बताया कि कैसे अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित तैयार करें। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी दी गई है उसका पालन करें।इस अवसर पर सहायक आयुक्त खाद्य कुमार गुंजन ,मुख्य सुरक्षा अधिकारी हितेश मोहन त्रिपाठी समेत अन्य सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे।खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 16 (3) (एच) के अनुसरण में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को व्यक्तियों (चाहे उनके क्षेत्र के भीतर या बाहर) के लिए खाद्य सुरक्षा और मानकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। जो खाद्य व्यवसायों में शामिल हैं या शामिल होने का इरादा रखते हैं, चाहे खाद्य व्यवसाय संचालक या कर्मचारी के रूप में या अन्यथा। इस संबंध में, ने जुलाई, 2017 में सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों का एक समूह बनाना है, जिन्हें अच्छी स्वच्छता और विनिर्माण प्रथाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा और मानक लाइसेंसिंग और पंजीकरण विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में आवश्यकताओं के अनुसार। खाद्य उद्योग में कुशल/प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना।

जिम्मेदार खाद्य व्यवसायों द्वारा एफएसएस अधिनियम, नियमों व विनियमों के आत्म-अनुपालन का एक बेहतर वातावरण बनाना। व्यवहारिक परिवर्तन लाना और देश में खाद्य सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना।एफबीओ को स्वच्छता और स्वच्छता आवश्यकताओं को समझने और उनका अनुपालन करने में मदद करने के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक लाइसेंसिंग और पंजीकरण विनियम, 2011 की अनुसूची 4 को एक पैनल द्वारा विकसित 25 प्रमाणन पाठ्यक्रमों (24+1 स्व-शिक्षण पाठ्यक्रम) के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए सरल बनाया गया है। एफएसएसएआई द्वारा सूचीबद्ध डोमेन विशेषज्ञ संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला को कवर करते हैं। खाद्य प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर सभी प्रकार के खाद्य व्यवसायों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने की दृष्टि से, बुनियादी, उन्नत और विशेष तीन स्तरों पर कुल 19 पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। बाद में, इसे कुल 25 पाठ्यक्रमों (24+1 स्व-शिक्षण पाठ्यक्रम) के साथ बेसिक, एडवांस और जागरूकता पाठ्यक्रमों में पुनर्गठित किया गया। साथ ही, इसमें मांग के अनुसार मौजूदा पाठ्यक्रम संरचना में अधिक क्षेत्र विशिष्ट पाठ्यक्रम जोड़ने का प्रावधान भी शामिल है। पाठ्यक्रम वर्तमान में प्रशिक्षण भागीदारों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकताओं के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।प्रशिक्षण कैस्केडिंग मोड में आयोजित किया जाता है। सबसे पहले, सूचीबद्ध राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनआरपी) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं और फिर प्रशिक्षित प्रशिक्षक सैकड़ों खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। ये खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक बदले में अपने खाद्य व्यवसाय परिसरों में खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित करते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू से अंत तक प्रबंधित करने के लिए एक आईटी-प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन पोर्टल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। साथ ही, यह प्रशिक्षण आयोजित करने में पहुंच में आसानी और पारदर्शिता प्रदान करता है।

अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा हुई मौत

अमन लेखनी समाचार

अमौली, फतेहपुर। जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जहानाबाद से फतेहपुर जाने वाले मुख्य मार्ग में मकंदीपुर मोड के समीप एक अज्ञात पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को रौदते हुए फरार हो गया राहगीरों ने तत्काल स्थानीय प्रशासन थाना चांदपुर को सूचना दी जहां चांदपुर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा बाइक सवार घायल 42 वर्षीय सत्येंद्र द्विवेदी उर्फ दरोगा पुत्र स्व.शिवदयाल द्विवेदी निवासी कुलखेड़ा थाना चांदपुर को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमौली भेजा जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत युवक को मृत्यु घोषित कर दिया मिली जानकारी के अनुसार युवक मेहनत मजदूरी तथा कृषि कार्य करते हुए अपनी पत्नी सुनीता 7 वर्षीय पुत्र आशुतोष तथा 4 वर्षीय पुत्री गौरी का जीवन यापन करता था अचानक हुई दुर्घटना की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया पुलिस प्रशासन ने शव को शव विच्छेदन गृह फतेहपुर रवाना किया

कई दिनों से गायब महिला का शव खेत से बरामद हत्या की आशंका

अमन लेखनी समाचार

खागा, फतेहपुर। जनपद के खखरेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बसवा निवासी 45 वर्षीय महिला रन्नो देवी पत्नी सुमेर पासवान विगत लगभग 5 दिनों से गायब थी 5 दिन बीत जाने के बाद खेत गए किसानों ने एक बाजरे के खेत में महिला का शव पड़ा हुआ देखा तथा प्रशासन को सूचना दी सूचना पाकर पहुंचे खखरेरू थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल का जायजा लिया वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की यह सूचना जब मृतका के मायके पक्ष को मिली तो मायके पक्ष से मृतका के चाचा प्रभु दयाल तथा भाई राजू जनपद के शवविच्छेदन गृह पहुंचे तथा बहनोई सुमेर पासवान के ऊपर हत्या का आरोप लगाया उन्होंने बताया की बहनोई के चरित्र अच्छे नहीं थे जिसका विरोध करने पर अधिकतर घर में मृतका के साथ मारपीट करता था वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका का शव मिलने के पश्चात पति सुमेर फरार है जिससे हत्या की आशंका जताई जा सकती है थाना अध्यक्ष ने पोस्टमार्टम के लिए शव शव विच्छेदन गृह फतेहपुर रवाना किया तथा बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी

संग्रह मिट्टी से वीर सपूतों की स्मृति में बनेगा उपवन - प्रदीप शुक्ला

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर।सहजनवां तहसील अंतर्गत विकासखंड पाली ब्लाक के सभागार में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज शुक्रवार को ब्लॉक पाली के सभागार में गांव गांव से आयी हुई मिट्टी कलश संग्रह किया गया।इस मिट्टी से देश के बीच सपूतों की स्मृति में एक विशाल उपवन का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप शुक्ला ने कलश संग्रह कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकताओं एवं पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि एकत्र हुई मिट्टी से वीर सपूतों को स्मृति में एक विशाल उपवन का निर्माण दिल्ली में होगा जिस पर हम सभी भारतीयों को इस पर गर्व है। विधायक ने स्वतंत्रता सैनानी शहीद परिजनों वं सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष शिवचरन प्रसाद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख शशी प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम में वीडियो बृजेश यादव प्रधान संघ अध्यक्ष विश्वजीत सिंह,नरेंद्र शुक्ला,रमेश मद्धेशिया,राजेश त्रिपाठी, रमेंद्र मिश्रा अखिलेश त्रिपाठी, ऐडियो धर्मेंद्र कुमार, सचिव हेमन्त सिंह,अजित शुक्ला,रुचिता मिश्रा, सुनैना सिंह, तमाम भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ो कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे।

11 हजार लाइन की चपेट में आकर युवक गम्भीर कानपुर रेफर

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के चक काजीपुर गांव में नवरात्रि के आगमन से पूर्व दुर्गा माता का पंडाल लगाते समय सीलिंग का पाइप 11 बिजलीं की लाइन में छू जाने से युवक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। तुरंत परिजन व ग्रामीणों ने घटना की सूचना सरकारी 108 एंबुलेंस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एंबुलेंस युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के चक काजीपुर गांव निवासी सदानंद का 20 वर्षीय पुत्र रमा शंकर ग्रामीणों के साथ मिलकर गाँव मे नवरात्रि आगमन से पूर्व दुर्गा माता का पंडाल लगा रहा था। तभी टेंट के सीलिंग का पाइप 11 हजार बिजलीं की लाइन में छू गया। लोहे का पाइप तार में छूते ही रमा शंकर बिजलीं के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। तुरंत परिजन ने घटना की सूचना सरकारी 108 एंबुलेंस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एंबुलेंस युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची।जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर युवक की हालत गम्भीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वही घायल रमा शंकर के पिता सदानंन्द ने बताया गांव में दुर्गा माता का पंडाल लगाया जा रहा था। तभी सीलिंग का पाइप ऊपर से निकली 11 हजार लाइन से छू गया और रमाशंकर बिजलीं के करन्ट की चपेट में आकर गम्भीर रूप से झुलस गया है। उसका इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए हैं।

गांव के एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के गडरियन पुरवा गांव में संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया युवक के फांसी लगाने की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो परिजनों के बीच में कोहराम मच गया घटना की जानकारी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया वहीं पुलिस घटना की जांच हड़ताल में लगी हुई है जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गडरियन पुरवा गांव निवासी घनश्याम पाल का 18 वर्षीय पुत्र अंकुश पाल ने संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया युवक का शव परिजनों ने फांसी के फंदे से लटकता हुआ देखा तो घर में कोहराम मच गया घटना की सूचना स्थानी पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी हुई है।

नुक्कड़ नाटक द्वारा दिया गया स्वच्छता का संदेश

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवां रेलवे स्टेशन के शुक्रवार को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सहजनवा रेलवे स्टेशन के सामने पावर ग्रिड के सौजन्य से नुक्कड़ नाटक द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया।अपनी सशक्त प्रस्तुति के माध्यम से नाटककारो ने उपस्थित जन समूह को अपने घरों के आसपास, रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखने और अन्य लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया।अवसर पर पावर ग्रिड के उप महाप्रबंधक मयंक बंसल ने स्वच्छता को अनेक संक्रामक रोगों से बचने का प्रमुख आधार बताया।साथ ही मौजूद लोगो को काटन बैग भी वितरित किया।इस अवसर पर स्नेहा, डी एन पाण्डेय, आर एस मल्ल, एस एन सिंह,महबूब अली, ए के श्रीवास्तव,मनोज पांडेय,लक्ष्मी निधि उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अनियंत्रित बाइक चालक गहरी खाई में गिरा हुई मौत

अमन लेखनी समाचार

बिंदकी, फतेहपुर। जनपद के बिंदकी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जोनिहा कस्बे के पास विगत शाम 12 अक्टूबर को एक बाइक चालक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा आसपास के राहगीरों ने जाकर मदद की जहां युवक गंभीर रूप से घायल अचेतावस्था में पाया गया स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी जहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया युवक की सिनाख्त मृतक के भाई आशीष ने करते हुए बताया कि युवक 35 वर्षीय सुभाषचंद्र पुत्र जगरूप सविता निवासी सुसवन बुजुर्ग थाना असोथर एक त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने बिंदकी कोतवाली थाना क्षेत्र के कीतीखेंड़ा गांव जा रहा था वहीं जोनिहा कस्बे के समीप अचानक बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी जहां चालक सुभाष चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया घायल को इलाज के लिए ले जाते जिससे पहले घायल युवक की सांसे थम गई यह जानकारी जैसे ही पारिवारिक जनों को हुई तो घर में कोहराम मच गया पुलिस प्रशासन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात विधिक कार्यवाही की जाएगी।

खेल प्रतियोगिता से निखरती है प्रतिभा - दिनेश

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवां तहसील अंतर्गत विकासखंड पाली क्षेत्र स्थित के ग्राम पंचायत मिनवा में मानव को निरोग रहने के लिए खेलकूद बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य रहने के लिए हमे प्रतिदिन व्यायाम करना जरूरी होता है। वही शिक्षा के साथ बच्चो को स्वास्थ्य रहने के लिए खेलकूद बहुत ही जरूरी है।खेलकूद से ही बच्चो के प्रतिभा का निखार होता है।जो देश और विदेश में अपनी प्रतिभा दिखा कर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन करते है।उक्त बातें प्रधान मिनवा दिनेश कुमार जायसवाल ने कम्पोजित विद्यालय मिनवा में आयोजित सप्त दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि लोगो संबोधित करते हुए कही।

इस दौरान मुख्य अतिथि विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए।इस दौरान प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौबे, गंगा शरण, अरविंद, करूनेश, साजिया, सुमन, प्रियंका, संतोषी शीत अनेक शिक्षक मौजूद थे।

देश के गौरव का प्रतीक बनेगा अमित वाटिका

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवां गाहासाड प्राथमिक विद्यालय द्वितीय वार्ड नंबर 12 में आयोजित मीरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में कहीं इस दौरान गांव नगर से आए मिट्टी कलशों को अमृत कलश यात्रा देश के हर कोने से कलशो में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी यह यात्रा अपने साथ देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर दिल्ली जाएगी। इसे मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी।यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी बनेगी। ये बातें क्षेत्रीय विधायक प्रदीप शुक्ला ने ' गाहासाड प्राथमिक विद्यालय द्वितीय वार्ड नंबर 12 में आयोजित माटी मेरा देश कार्यक्रम में कहीं इस दौरान गांव नगर से आए मिट्टी कलशो को नगर पंचायत अध्यक्ष संजू सिंह ने विधायक को सौंप।कार्यक्रम को पूर्व विधायक जीएम सिंह ने भी संबोधित किया। नगर पंचायत में घर-घर से कलश में लाई गई मिट्टी को एक बड़े कलश में एकत्र किया गया।इस अवसर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला, बिजेंद्र कुमार, वेद प्रकाश, दिनेश सिंह सभासद सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजुद रहे।

बंद फ्लाइट रद्द होने के बाद लौटने का रास्ता बंद

इजराइल हमास जंग में फंसा मेरठ का परिवार

अमन लेखनी समाचार

मेरठ, मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र निवासी एक परिवार इजरायल में जंग के बीच फंस गया है। परिवार वहां से लगातार मदद की गुहार कर रहा है।इस परिवार में शादी करके आई बहू अमरोहा के भाजपा नेता गुरेंद्र सिंह की भतीजी है । मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के रहने वाले परिवार एक परिवार का बेटा, पत्नी और बेटी के साथ इजरायल में फंस गया है। वहां हमास के हमले के बाद स्थिति काफी खराब हो गई है। इससे परिवार को वहां से वापस भारत लौटने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के गांव शौलदा निवासी मोहित रंधावा आईआईटी रुड़की से पीएचडी की है। मोहित की तीन साल की बेटी कीरत कौर भी उनके साथ फंसी हुई है। 2020 में मोहित जुकरबर्ग यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टोरल की पढ़ाई करने के लिए इजराइल गए थे। बाद में पत्नी जयदीप कौर और बेटी कीरत कौर को भी अपने पास इजराइल बुला लिया। युवक की पत्नी जयदीप कौर अमरोहा के भाजपा नेता गुरेंद्र सिंह की भतीजी है। मोहित रंधावा के परिजनों ने बताया कि मोहित परिवार सहित 12 अक्टूबर को वापस आने वाले थे, लेकिन हमला होने के बाद सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। परिवार और भारतीय दूतावास भी लगातार उनके बारे में लगातार संपर्क बनाए हुए है। अमरोहा आवास विकास कालोनी प्रथम निवासी कारोबारी सुरेंद्र सिंह ढिल्लो, शिक्षक विधायक डॉ. हरिसिंह ढिल्लो के भतीजे और ब्लॉक प्रमुख गुरेंद्र सिंह ढिल्लो के भाई हैं।स्वयं भी भाजपा में जिला मीडिया संपर्क प्रमुख हैं।17 जून 2017 को जयदीप की शादी मोहित से हुई थी। किठौर, शोल्दा गांव में मोहित के घर में बुजुर्ग मां, बाप अकेले रहते हैं। दोनों को बस बेटा, बहू, पोती की वापसी का इंतजार है। कभी टीवी पर इजरायल के हालातों की खबरें देख लेते हैं।तो कभी बेटा, बहू से वीडियो कॉल पर बात करके हालचाल पूछते हैं। मोहित की बुजुर्ग मां ने बताया कि अभी बेटे से बात हुई है, उसने बताया कि वो वहां पर सेफ है, लेकिन चिंता तो होती है। बच्चों ने बताया कि वहां पर युद्ध चल रहा है मोहित के बुजुर्ग पिता ओमवीर दरवाजे पर टकटकी लगाए बेटे का इंतजार कर रहे हैं। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ये युद्ध थम जाए और सब ठीक रहें। ओमवीर ने बताया कि बेटा मोहित इजरायल गया हुआ है। बेटे से फोन पर बात हो रही है, वो लोग जहां पर हैं वहां हालात ठीक है।वो अपने फ्लैट में बंद है। लेकिन उनके शहर से लगभग 400 किमी दूरी पर हमले हो रहे हैं। सरकार से हमारी गुहार है कि बेटा, बहू सही सलामत वापस आ जाएं। जब फ्लाइट्स चलेंगी तभी वो वापस आएंगे। गांव के प्रधान मोहित कुमार ने बताया कि हमारे गांव के निवासी मोहित रंधावा, पत्नी, बेटी सहित इजरायल में फंसे हुए हैं। वो जल्द से जल्द मेरठ में आएं इसके लिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मोहित यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, पत्नी वहां पढ़ाई कर रही हैं। पिछले ढाई साल से मोहित का परिवार वहां इजरायल में उनके साथ है। प्रशासन, पुलिस और सरकार से हमने उस परिवार को सुरक्षित मेरठ लाने के लिए गुहार लगाई है।

मेरठ में नगर निगम के स्क्रैप गोदाम में लगी आग

- लाखों का सरकारी माल जलकर हुआ राख, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू

अमन लेखनी समाचार

मेरठ, मेरठ नगर निगम के स्क्रैप गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया तो आग और भड़क गई। गनीमत रही उस समय नगर निगम परिसर में शहर वासियों की आवाजाही कम थी। आग लगने की वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई।कर्मचारियों ने आनन-फानन में दमकल कर्मियों को सूचना दी।जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।लेकिन आग लगने के कारण का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है।नगर निगम परिसर में बने नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा के ऑफिस के पीछे स्क्रैप गोदाम हैं।जहां अचानक आग लग गई। कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रयास भी किया। लेकिन वे असफल रहें। जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया।हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट पता नहीं चला हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह का कहना है कि फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

लेकिन आग लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि नगर निगम में बने गोदाम के पीछे एक और कमरा बना हुआ था। जहां पुराने टायर और कुछ पुराना सामान रखा था। उसी में आग लगी थी।जिसे समय पर बुझा लिया गया। आग कैसे लगी इसकी जांच कराई जाएगी। नगर निगम की टीम ने कबाड़ से जुगाड़ का टेंडर एक कंपनी को दिया हैं, जो नगर निगम के कबाड़ से सजावट की वस्तुएं बनाकर शहर में लगाते हैं।

खास समाचार

बदलते भारत में छोटे छोटे शहरों से आगे आ रहे टैलेंट - नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश सुनकर उत्साहित हुए युवा खिलाड़ी

अमेठी। शुक्रवार को सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर कौहार में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वीडियो संदेश खिलाड़ियों ने बड़े ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एशियन खेलों में जिस तरह से देश के खिलाड़ियों ने पदकों के शतक लगाकर तिरंगे को बुलंद किया है, उसी तरह अमेठी के खिलाड़ियों ने इस बड़े खेल आयोजन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर भारत के भविष्य को मजबूत किया है। सांसद खेल कूद प्रतियोगिता के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, कहा कि इस खेलकूद प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को जो ऊर्जा, जोश और आत्म विश्वास मिला है, उसे संभाल कर रखें।मैं हर उस व्यक्ति को बधाई देता हूं जिसने शिक्षक और निरीक्षक के रूप में महा अभियान से जुड़कर इस खेल आयोजन को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान किया।मैं स्मृति ईरानी जी को भी शुभकामना देता हूं। किसी भी समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वहां खेलों का विकास हो।भाजपा के सभी सांसदों ने खेलों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के विकास का नया रास्ता तैयार किया है।आज पूरा देश खिलाड़ियों की तरह खेल कर प्रगति के नये कीर्तिमान बना रहा है। खेलों इंडिया के माध्यम से 3000खिलाडियों को पचास हजार रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है। बदलते हुए भारत ने छोटे छोटे शहरों से टैलेंट आगे आ रहे हैं। भारत में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को आगे बढ़ने के मौके दिए जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि अमेठी के खिलाड़ी भी किसी न किसी दिन तिरंगे के साथ भारत का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री ने सुधा सिंह और पारुल चौधरी का नाम लेकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

राशिद अली भारतीय किसान यूनियन भानू के मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए

बहराइच। भारतीय किसान यूनियन भानू ने संगठन को शक्तिशाली बनने हुए तथा संगठन का विस्तार करते हुए जनपद बहराइच के नानपारा नगर के मूल निवासी वरिष्ठ समाजसेवी व पत्रकार राशिद अली जी को उत्तर प्रदेश (उत्तर जोन) का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है, नियुक्ति होने के बाद श्री राशिद अली ने कहा कि हम संगठन के प्रति ईमानदार रहेंगे तथा संगठन के प्रचार प्रसार में पूरी तत्परता से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हमारा प्रयास है कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के विचारों को देश के कोने-कोने तक ले जाएं और उनके विचारों को सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन तक पहुंचाएंगे, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री रजिउद्दीन बच्छून ने संगठन हित को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति की है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि श्री राशिद अली जी के संगठन में आने से संगठन मीडिया क्षेत्र में और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा बताते चलें कि राशिद अली देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन अंतर्राष्ट्रीय इंडियन रिपोर्ट्स एसोसियेशन पंजीकृत उत्तर प्रदेश ईकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं

मेरी माटी, मेरा देश, माटी का नमन,वीरों का वंदन धूमधाम से संपन्न

गाजीपुर। मेरी माटी मेरा देश ,माटी का नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय महिला पीजी कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कालेज की छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई तथा अमृत कलश में विद्यालय परिसर की पवित्र मिट्टी डाली गई सअंत में एनएसएस के नोडल अधिकारी डा .अमित यादव ने सभी को पांच प्रण की शपथ दिलाई सइस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र गाजीपुर के लेखा एवं कार्यक्रम सहायक सुभाष चंद्र प्रसाद, कार्यक्रम अधिकारी डॉ गजनफर सईद एवं डॉक्टर संगीता मौर्य ,डॉक्टर शशि कला ,डॉक्टर सारिका सिंह ,डॉक्टर विकास सिंह ,राघवेंद्र सिंह, स्वयं सेवक खुशबू वर्मा शास्वत आदि उपस्थित रहे।

नशे के अवैध कारोबार का हब बनता जा रहा है अलीगंज थाना क्षेत्र

अम्बेडकरनगर , बुनकर नगरी टांडा को कहीं अलीगंज थाना पुलिस बदनाम करना तो नहीं चाह रही हैं या अवैध रूप से नशे का व्यापार करने वालों से उसकी कोई सांठगांठ है। अलीगंज थाना क्षेत्र नशे के सामानों के व्यवसाय करने का हब बनता जा रहा है। थाना क्षेत्र में नशे के सामानों का व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ रहा है। पुलिस दूसरे प्रान्त से नशे की अवैध सामग्री लाने वालों को तो पकड़ लेती है लेकिन उसके अथवा आसपास के थाना क्षेत्रों में फुटकर व्यवसाय करने वालों को ढूंढ नहीं पाती है।टांडा नगर की पहचान बुनकरों द्वारा तैयार कपड़ों के हब के रूप में है। टांडा नगर में तैयार कपड़ों की विदेशों में धूम है। यहां अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक के कपड़ों की बुनाई करते हैं। अभी हाल ही में टांडा के बड़े बुनकर व्यवसायी कासिम अंसारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम से विदेश से लौटे हैं। उन्होंने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर टांडा में बने कपड़ों की बड़ी मांग है। वहीं दूसरी तरफ अलीगंज थाना क्षेत्र में बीते कुछ माह में आधा दर्जन से अधिक नशे के सौदागरों को अलीगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा और उनसे लाखों की कीमत के नशे के सामान बरामद करने का दावा किया। अभी गत 10 अक्तूबर को बिहार प्रदेश के एक नशे के सौदागर मुमताज देवान को गिरफ्तार कर पुलिस 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की चरस बरामद करने का दावा कर रही है।

पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित

अमन लेखनी समाचार

जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा आगामी त्यौहार दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के दृष्टिगत पुलिस लाइन गाजीपुर सभागार कक्ष में पीस कमेटी की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, मूर्ति पूजा आयोजक, व्यापार मंडल के लोग तथा संभ्रांत नागरिकगण मौजूद थे। मीटिंग में महोदय द्वारा त्योहारों के दृष्टिगत लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनसे संवाद किया गया तथा आगामी त्योहारों को सरकार के गाइड लाइंस के साथ सकुशल शांतिपूर्ण एवम भाईचारे के साथ मनाने के लिए सभी से अपील की गई।महोदय द्वारा लोगो से यह अपील की गई की पूजा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पांडाल में सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, पानी इत्यादि की व्यवस्था रखें।मीटिंग में एडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण, सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारी, राजस्व के विभिन्न अधिकारीगण एवं शांति समिति के विभिन्न पदाधिकारीगण उपस्थित थें। इस क्रम में अधिकारियों द्वारा शहर कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण किया गया तथा शहर में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री ने अमेठी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता-2023 के विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत

अमेठी आज अपने एक नए रूप में पहचान बना रही है – मुख्यमंत्री योगी

699.79 करोड़ की लागत से 879 परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास।

प्रदेश सरकार द्वारा गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ की धनराशि के साथ ही डिप्टी एसपी का पद भी दिया जा रहा है .– मुख्यमंत्री

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता-2023 के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करने के साथ ही 699.79 करोड़ की लागत से 879 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि अमेठी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में 111000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया की बात देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रत्येक युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए आवाहन किया था तो पूरे देश में खेल की प्रतियोगिताएं बढी थी विगत तीन-चार वर्षो से हर संसदीय क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, गांव से लेकर न्याय पंचायत स्तर पर, स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर पर और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक-एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ जोड़ा जा रहा है पहले चरण में सैकड़ो की संख्या में दूसरे चरण में हजारों की संख्या में और अब अमेठी में 111000 खिलाड़ियों ने खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर मा. प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियन गेम्स में 107 भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे जिसमें से 25 फीसदी मेडल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार तीन-तीन करोड़ की रुपए की धनराशि देने के साथ ही उन्हें डिप्टी एसपी का पद भी देने जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 80000 युवक मंगल और महिला मंगल दलों को खेल कूद किट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं जिन्होंने अलग-अलग प्रतियोगिताओं अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, वर्ल्ड

चैंपियनशिप में मेडल जीते थे और नौकरी के लिए इधर-उधर तलाश रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौकरी और प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में खेलकूद मैदान, प्रत्येक विकासखंड में मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम के निर्माण के साथ ही गांव-गांव में ओपन जिम बनाने के साथ ही खिलाड़ियों को स्पोर्ट किट भी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेठी आज अपने एक नए रूप में पहचान बना रही है अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी इसके साथ ही लगभग 700 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का आज लोकार्पण/शिलान्यास किया गया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, आंगनबाड़ी, वन स्टाप सेंटर एवं अन्य विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं जिसका लाभ अमेठी वासियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है जिनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को दिया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार अमेठी के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही अब सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत गांव-गांव के कलाकारों को वैश्विक स्तर पर मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम से स्थापित कर रही है जो उत्तर प्रदेश में खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री एवं अन्य मंत्रीगणों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के तहत अमृत कलश में मिट्टी व अक्षत का संग्रहण किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार/सांसद अमेठी स्मृति जूबिन इरानी ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए सभी खिलाड़ियों व उनके अभिभावकों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था जिसमें 1,11000 युवाओं ने प्रतिभाग किया। जिसमें विजेता खिलाड़ियों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल जगत में गांव-गांव के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्रिकेटर सुरेश रैना, महिला खिलाड़ी पीटी उषा जी का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास राजनैतिक पेंशन अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश गिरीश चन्द्र यादव, राज्यमंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश मयंकेश्वर शरण सिंह, सांसद उत्तर पूर्व दिल्ली मनोज तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, विधायक जगदीशपुर सुरेश पासी, विधायक सलोन अशोक कोरी, सदस्य विधान परिषद गोविंद नारायण शुक्ल, शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री भाजपा संजय राय, जिला अध्यक्ष भाजपा राम प्रसाद मिश्र सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मंडलायुक्त अयोध्या मंडल गौरव दयाल, आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक डॉ इलमारन जी, मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व भारी संख्या में जन सामान्य मौजूद रहे।

करोड़ों की सौगात देकर नाराजगी दूर करने की कोशिश

अमेठी में आज सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और स्मृति ईरानी समेत इखढ सरकार के सभी बड़े चेहरे मौजूद रहे। इसका सबसे बड़ा कारण संजय गांधी मेडिकल कॉलेज को लेकर चल रहा विवाद।

सफाई के दावे तोड़ रहे दम,नाले में फैली गंदगी से लोगों में बढा बीमारी का खतरा

अमन लेखनी समाचार

झाँसी। एक ओर जहाँ योगी सरकार स्वच्छता को लेकर तमाम प्रयास कर रही है और स्वच्छता को लेकर लाखों रुपए खर्च कर रही है पर उसके उलट गरौठा तहसील अंतर्गत आने वाली गुरसराय नगर पालिका साफ सफाई व्यवस्था से कोसों दूर है।शासन प्रशासन के लाख दावों के बीच गुरसराय में सफाई व्यवस्था कि स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है।लोगों का आरोप है कि एक सामान्य सी बरसात होने पर भी नाले का पानी सड़क पर और लोगों के मकानों में चला जाता हैं।अभी पिछले दिनों हुई बारिश में कस्वे में बाढ़ जैसे हालत हो गए थे।एडीएम ने भी नगर का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए थे, फिर भी पालिका प्रशासन ने अभी तक इस ओर अमल नही किया है।इस समय डेंगू ने अपने पैर पसार लिए है। एक छात्रा की मौत भी हो चुकी है और कई लोग बीमार है।पालिका प्रशासन का लचर रवैया लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकता हैं। योगी सरकार के सख्त आदेशों के बाद भी नगर में एंटीजन

लार्वा एवं फॉगिंग का कार्य नही हो रहा है। इसका मुख्य कारण पालिका की लापरवाही है।लोगों ने बताया कि गुरुवार को एक गाय इसी नाले में गिर गयी थी जिसे लोगों के सहयोग से निकाल लिया गया था। शाम को फिर से गाय नाले में गिर गई। नाले की गंदगी से बीमारी फैलाने वाले मच्छर पैदा हो रहे हैं।जिससे लोग भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं।डेगुं, मलेरिया की बीमारी इस गंदगी के कारण ही बढ़ी है। अधिकांश नाले कचरे की सफाई नहीं होने के कारण बंद हो गए हैं और उनमें जमी गंदगी से मोहल्लावासियों का सांस लेना दूभर हो रहा है। नालों की सफाई करने के नाम पर मात्र रस्म अदायी की जाती हैं जिससे नाले गंदगी और कीचड़ से पटे हुए हैं।गंदगी से संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। नालों की सफाई कराए जाने के लिए नगर पालिका लाखों रुपये खर्च करता है, अभियान चलाया जाता है, नालों की सफाई करते हुए फोटो भी खिंचवाए जाते हैं। इसके बावजूद नाले गंदगी से पटे पड़े हैं। दुर्गन्ध से आसपास के लोगों को रहना मुश्किल है।अब देखना है की नगर पालिका द्वारा आखिर कब नालों का सफाई करवाई जाती है।

ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाये

पत्रकार वार्ता में बोले राज्यमंत्री हरगोविंद कुशवाहा

अमन लेखनी समाचार

गरौठा, झांसी। गरौठा क्षेत्र में बुंदेलखंड और देश के कई ऐसे ऐतिहासिक स्थान है जहां पर्यटन की दृष्टि से विकसित करके प्राचीन संस्कृति धरोहर की पहचान बरकरार रखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री एडवोकेट हरगोविंद कुशवाहा ने गुरसरांय में राष्ट्रभक्त संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी उर्फ वल्ले के आवास पर पत्रकार वार्ता में बताया कि हटा घाट गरौठा तहसील का नदी का ऐसा सीमा क्षेत्र है जहां झांसी, जालौन, हमीरपुर तीनों जिलों का यह ऐतिहासिक स्थल अपनी ऐतिहासिक पहचान रखता है इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करके और जालौन जिले के

परासन गांव सहित बुंदेलखंड के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र घोषित करके यहां युद्ध स्तर पर काम होने की जरूरत है। हरगोविंद कुशवाहा ने बताया पंडित रामसहाय शर्मा खैर इंटर कॉलेज गुरसरांय का 1965 में एक पैनल बैठा था जिसमें उत्तर प्रदेश से झांसी जिले के इस गुरसरांय कॉलेज को सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ था और इस विद्यालय से आईएएस डॉक्टर वैज्ञानिक न केवल भारत देश में बल्कि विश्व पटल पर अपनी पहचान उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कामों की बदौलत बनी हुई है। बुंदेलखंड को आर्थिक और प्राकृतिक रूप से विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री अन्न (मोटा अनाज) उत्पादन उपयोगिता और किसानों को हर प्रकार से संरक्षण के लिए जो काम किए जा रहे हैं वह ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा इंक्रिसैट (अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान) हैदराबाद तेलंगाना के तत्वाधान में टहरौली क्षेत्र में 40 गांव में जो काम किसानों के लिए हो रहा है उससे प्राकृतिक जल संरक्षण से लेकर प्राकृतिक खेती और किसानों के लिए बीज से लेकर यंत्र, सिचाई संसाधन सभी सुविधाएं सरकार अपनी ओर से फ्री उपलब्ध कराकर बैज्ञानिको को भी समय-समय पर भेज कर किसानों को प्रशिक्षित कर रही है और जिसके बेहतरीन नतीजे भड़ोखर गांव में आठ सौ बीघा में पानी भरा है और कुओं मैं पानी स्वतः आ गया है जिससे वाटर लेवल क्षेत्र का बढ़ गया है अब इस योजना में तीस गांव और जोड़ दिए गए हैं। इस योजना को पूरे बुंदेलखंड में चला कर बुंदेलखंड की तरक्की का रास्ता खास तौर से किसानों मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा।इस दौरान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा और राज्यमंत्री को माल्यार्पण कर राष्ट्रभक्त संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, सोनम सोनी सहित अन्य लोगों ने गर्म जोशी से स्वागत किया। वही गुरसरांय में बस स्टैंड निर्माण करने को लेकर और तीन विद्युत खम्मा लगवाने की मांग की गई जिस पर राज्यमंत्री ने एसडीओं विद्युत से फोन पर खम्मा लगवाने की बात कही जो काम जल्द चालू होगा। इस दौरान अखिल भारतीय गायत्री परिवार के प्रमुख एडवोकेट सतीश चौरसिया, कुंवर रामकुमार सिंह, अखिलेश तिवारी, अरुण चतुर्वेदी, सार्थक नायक, कौशल किशोर, बलराम पटेल, शौकीन खान, अंकित सेंगर, हरिश्चंद्र नायक, अभिषेक गुप्ता, अभिषेक चतुर्वेदी, अंश योगी, जय सोनी आदि मौजूद रहे। अंत में सभी का आभार व्यक्त धर्मेंद्र सोनी उर्फ वल्ले ने किया।

अवैध तमंचा व कारतूस सहित युवक गिरफ्तार

मुसाफिरखाना , अमेठी।स्थानीय कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस टीम ने एक आरोपी को अवैद्य तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही शुरू की । एसपी डा इला मारन जी के निर्देश पर सीओ गौरव सिंह के कुशल मार्गदर्शन में स्थानीय कोतवाली पुलिस लगातार अपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध सघन तलाशी के साथ ही छापेमारी कर रही है।गुरुवार की देर रात अभियान के तहत एसआई इंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर चौराहा से एक युवक को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली।तलाशी के दौरान हिरासत में लिए गए युवक के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस बरामद किया।

शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाये नवरात्रि, दशहरा पर्वः एसओ

गरौठा, झाँसी। आगामी नवरात्रि व दशहरा त्योहार को मद्देनजर रखते हुए थाना ककरवई में थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष ने दुर्गा प्रतिमा रखे जाने वाले स्थलों, दुर्गा मंदिरों व कार्यक्रम आयोजक कमेटी के सदस्यों की जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने सभी से अपील करते हुए कहा की सभी लोग शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से नवरात्रि व दशहरा का त्यौहार मनाये।इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दे।उन्होंने कहा की मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी प्रकार का जुलूस न निकाले और ना ही छोटे बच्चों को जलाशय स्थल पर लेकर जाये। इस दौरान उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, आशीष कुमार सहित ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार तिवारी, हरेंद्र सिंह परिहार, पुष्पेंद्र सिंह, जगभान, साहब सिंह, भैयालाल अहिरवार, नीरज सोनी, सहित दुर्गा प्रतिमा स्थापना कमेटी के सदस्य, संभ्रान्त नगर एवं पत्रकार बंधु मौजूद रहे।

सिलेंडर फट जाने से गुमटी में लगी आग

नकदी सहित सारा सामान जलकर हुआ खाक

अमन लेखनी समाचार

गरौठा, झांसी। मऊरानीपुर मार्ग पर निमगहना स्टैंड पर एक गुमटी मे गैस सिलेंडर फट जाने से अफरा - तफरी मच गई । मौके पर पहुँची फायर ब्रिगेड की टीम ने गुमटी मे जल रहे सिलेंडर व अन्य सामान को बुझाया। सिलेंडर मे लगी आग से हजारो रुपए का सामान व हजारो रुपए की नकदी जलकर खाक हो गई। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान का सामान जलकर खाक हो गया था। मौके पर पहुँचे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनय दिवाकर ने बताया है कि निमगहना निवासी सुरेंद्र राजपूत जिला महोबा के ग्राम महुआ बांध का रहने वाला है वह अपनी ससुराल में रहते थे निमगहना बस स्टैंड पर गुमटी रखे हुए थे उसमें वह परचून का सामान एवं अंडा वेचते थे। गुरूवार की शाम को गैस सिलेंडर जलाकर अंडा उवाल रहा था । कि अचानक गैस सिलेंडर मे आग लग गई। आग लगते ही गैस सिलेंडर फट गया। दुकानदार व आस पास खडे लोग दुकान छोडकर भाग गए। जिससे बडा हादसा होने से बच गया। मौके पर पहुँची अग्निशमन दल के कर्मचारियो ने बताया है कि गुमटी मे रखा परचून का सामान व नगदी जल गई । दुकानदार ने बताया है कि किसानो की मजदूरी देने के लिए 13300 रुपए की नकदी दुकान मे रखी हुई थी एवं दुकान की बिक्री लगभग 800 रुपए भी रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गई है। दुकान का सारा सामान जल जाने से दुकानदार का परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है क्योकि उसके परिवार का गुजर बसर गुमटी से ही होता था।

औषधि निरीक्षक ने दवा दुकानों का किया औचक निरीक्षण

अमन लेखनी समाचार

बहराइच । औषधि निरीक्षक बहराइच विनय कृष्ण ने रूपईडीहा बाजार में स्थित चार मेडिकल स्टोरो का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवाओं के लिए जरूरी लाईसेंस, रखरखाव, एक्सपायरी तिथि की दवाएं और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ मेडिकल स्टोरों से से अधोमानक स्तर की दवाएं होने के सन्देह में जांच के लिए सैंपल भी लिया गया, साथ ही दवाओं के रखरखाव, दुकान की साफ सफाई व शेड्यूल एच, एच-1 की औषधियों के क्रय-विक्रय के अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल के लगे सीसीटीवी कैमरा की भी जांच की साथ ही यह भी कहा है कि अगर किसी भी दुकान पर नशीली दवाओं पाई गई तो, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

अमन लेखनी
(हिन्दी दैनिक)

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती अखिलेश सिंह द्वारा अवध एक्सप्रेस प्रकाशन, 434, सिविल लाइन, जेल रोड, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से मुद्रित और ग्राम व पोस्ट-बनी, थाना- बन्थरा, लखनऊ-226401 (उ.प्र.) से प्रकाशित।

सम्पादक –
श्रीमती अखिलेश सिंह

समाचार सम्पादक –
रुद्र प्रताप सिंह

समाचार से संबंधित सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

मो. - 9838159555, 9935457982

E-mail address
amanlekhaninews@gmail.com

बच्चों, जो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह या किसी दूसरे देश में जाकर प्रवास करते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये पक्षी अपनी जरूरतें पूरी होने पर और मौसम बदलने पर दोबारा अपने मूल स्थल पर वापस लौट आते हैं। यहां हम तुम्हें कुछ प्रवासी पक्षियों के बारे में बता रहे हैं।

यूनीक बड्र्स / शिखर चंद जैन

गजब के हैं ये प्रवासी पक्षी

बार हेडेड गूज

बार हेडेड गूज या सफेद हंस भारत से निकलकर अपने प्रजनन के लिए अनुकूल इलाकों जैसे मंगोलिया, तिब्बती पठार और उत्तरी चीन तक का सफर करता है। इसके लिए इसे हिमालय की ऊंची और लंबी पर्वत श्रृंखला को पार करना पड़ता है। इस पक्षी को दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। यह 23,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार उड़ने की क्षमता रखता है। जबकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। *

बार टेल्ड गोडविट

माइग्रेशन के दौरान बार टेल्ड गोडविट नामक पक्षी सबसे लंबी नॉनस्टॉप उड़ान भरने वाला पक्षी माना जाता है। यह मस्त मौला, ऊर्जावान और फुर्तीला पक्षी अलास्का से न्यूजीलैंड की 11,000 किमी. की दूरी को बिना आराम किए, बिना भोजन लिए और बिना कहीं रुके आठ दिनों में पूरी करता है। लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम नहीं, इस पक्षी का यही जीवन मंत्र होता है। *

शूटी शीयरवाटर

न्यूजीलैंड का यह पक्षी मटन बर्ड या टीटी भी कहलाता है। प्रवास के दौरान सबसे लंबी दूरी की उड़ान भरने में माहिर पक्षियों में इसका दूसरा नंबर आता है। शूटी शीयरवाटर हर साल लगभग 64,000 किमी. की उड़ान भरता है। इसे झुंड की बजाय अकेले ही यात्रा करने की आदत होती है। *

आर्कटिक टर्न

आर्कटिक टर्न पक्षी, माइग्रेशन यानी प्रवास के लिए प्रतिवर्ष ग्रीनलैंड से अंटार्कटिका के बीच करीब 90,000 से 96,000 किमी की उड़ान भरता है। कहा जाता है कि अपनी 30 वर्ष की आयु में यह पक्षी जितनी दूरी की उड़ान भर लेता है, उसमें तीन बार पृथ्वी से चांद पर जाकर लौटा जा सकता है। ये पक्षी वजन में इतने हल्के होते हैं कि समुद्री हवाएं इन्हें अपने साथ बहाकर लंबी दूरी तक पहुंचा देती हैं। *

ग्रेट स्नाइप

सबसे तेज गति से उड़ान भरने का रिकॉर्ड ग्रेट स्नाइप नामक प्रवासी पक्षी के नाम है। इसकी उड़ान की गति 97 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अपनी इसी फुर्तीली उड़ान के कारण यह स्वीडन से अफ्रीका की 6,760 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 दिनों में तय करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस यात्रा के दौरान ग्रेट स्नाइप न आराम करने की लिए रुकता है, न पेट पूजा के लिए। हालांकि इन दो दिनों की यात्रा में इसके शरीर का वजन जरूर आधा हो जाता है। *

हमिंग बर्ड

हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, जो प्रवास के लिए दूसरे देश जाता है। हमिंग बर्ड की एक प्रजाति रूफस, अलास्का में स्थित अपने मूल क्षेत्र से मैक्सिको तक 4,800 किलोमीटर की एकतरफा यात्रा करती है। हां, खाने के मामले में यह पेटू चिड़िया है। यात्रा के दौरान यह अपने वजन से 2 गुना कीड़े-मकोड़े और परागकण खा लेती है। रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड पनामा से इस्टर्न यूएस तक की 1,400 किलोमीटर की यात्रा बिना रुके तय करता है। *

जानकारी

रोमांच से भरा खेल पैराग्लाइडिंग

बच्चों, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी को पैराग्लाइडिंग वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि जिन पर्यटकों को पक्षियों की तरह उड़ने का रोमांचक अनुभव लेना होता है, वे यहां पैराग्लाइडिंग का आनंद जरूर लेते हैं। जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहां एक साथ पैराग्लाइडिंग करते हैं तो अलग-अलग रंगों के ग्लाइडर्स घाटी के दृश्य को बहुत मनोरम बना देते हैं। पैराग्लाइडिंग में मसल्स पावर की जरूरत होती है, जिसकी मदद से पायलट हवा के ग्लाइडर को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। पैराग्लाइडिंग अकेले और जोड़े में यानी किसी के साथ भी की जा सकती है। शौकिया तौर पर ग्लाइडिंग करने वाले पर्यटकों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए द एयरो इंडिया क्लब ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना जरूरी है। पैराग्लाइडर बाकी आकाशीय खेलों से भले सस्ता हो, लेकिन जोखिम इसमें भी शामिल है।

बच्चों, पैराग्लाइडर का वजन अधिक न हो और हवा में तेज गति से उड़ते समय अचानक लगने वाले झटके को सह सके, इसका निर्माण करने वाली कंपनियां इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं। कंपनियां पैराग्लाइडर को ऐसा आकार देती हैं, जिससे उड़ते समय हवा का प्रेशर बना रहे। पैराग्लाइडिंग करते समय पायलट को एक विशेष ड्रेस और हेलमेट को पहनना पड़ता है। साथ ही जीपीएस (ग्लोबल पोजशनिंग सिस्टम) वाली बेल्ट पहननी पड़ती हैं। इसके अलावा पायलट अपने साथ वाकी-टाकी(बात करने का यंत्र) भी रखता है। पायलट फर्स्ट एड के साथ-साथ आपात स्थितियों में उतरने और बचाव से संबंधित जानकारियों से लैस होता है। *

-एफएमएन

जीके क्विज-75

1. वर्तमान समय के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है?
2. इस साल किसे शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है?
3. हाल में वर्ल्ड कप 2023 के मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया?
4. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का मुख्यालय कहां है?
5. देश के किस शहर का उपनाम ब्लू सिटी भी है?
6. आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है?
7. दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किस महान नेता की है?
8. सौरमंडल में कितने ग्रह हैं?
9. टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?
10. चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था?

बच्चों, जीके क्विज-75 का उत्तर बालभूमि के अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। सही जवाब देने वाले बच्चों के नाम भी प्रकाशित किए जाएंगे।

जीके क्विज-74 का उत्तर : उत्तर : 1-मिजोरम, 2-जीलैंडिया, 3-हरित क्रांति, 4-ब्राजील, 5-शुतुरमुर्ग, 6-चकित करना, 7-वहीदा रहमान, 8-ग्राहम बेल, 9-ईरान, 10-फ्रांस

जीके क्विज-74 का सही उत्तर देने वाले : दीप्तिका-रायपुर, वैभवी-सांगली, भूपेश-रायपुर, निविया-रायपुर, प्रियंका-रोहतक, सुरेश-बिलासपुर, अंकिता-भोपाल, जतिन-महेंद्रगढ़, हितेश-राजनांदगांव, नरेश-रायपुर, पूजा-दिल्ली

हंसगुल्ले

मिंकू- रिंकू, तुम बहुत कमजोर हो, फल खाया करो छिलके सहित। याद है ना कल क्लास में मैडम ने कहा था।
रिंकू (मुस्कुराते हुए)- मैं छिलके वाला फल खाना चाहता हूं लेकिन मम्मी खाने से मना करती हैं।
मिंकू-कौन-सा फल?
रिंकू - केला!

-विवेक, दुर्ग

गप्पा (टेलर की दुकान पर)- अंकल, शर्ट की सिलाई के कितने रुपए लगेंगे?
टेलर अंकल- 500 रुपए।
गप्पा- ...और टी-शर्ट के?
टेलर अंकल- 250 रुपए।
गप्पा- तो ठीक है अंकल, एक टी-शर्ट सिल दीजिए, लेकिन बाजू की लंबाई कलाइयों तक रखिएगा।

-पिंकी, महेंद्रगढ़

सोनी- मोनी बता, 8 के आधे कितने होंगे?
मोनी- आड़े काटोगे तो 0-0 और खड़े काटोगे तो 3-3।

-पूजा, रायपुर

कहानी

सरस्वती रमेश

अमित को मम्मी से इस बात की नाराजगी थी कि वह स्कूल लंच बॉक्स में हमेशा हरी सब्जी क्यों देती हैं, सैंडविच, नूडल्स और केक जैसी चीजें क्यों नहीं देतीं? उसके क्लास के बच्चे ऐसी टेस्टी चीजें ही लाते हैं। लेकिन दो दिन बाद ही अमित ने खुद मम्मी से लंच में हरी सब्जी देने को कहा। आखिर ऐसा क्या हुआ, जो अमित को ऐसा कहना पड़ा?

हेल्दी खाना

अमित फिफ्थ पास कर सिक्स्थ क्लास में आया तो पापा ने उसका एडमिशन शहर के एक नामी स्कूल में करवा दिया। अमित इस स्कूल में आकर बहुत खुश था। नए टीचर्स से पढ़ने और नए दोस्त बनाने में उसे बड़ा अच्छा लगा। वह स्कूल से घर लौटकर अपनी मम्मी को स्कूल की सारी बातें बताता। मम्मी भी बड़े चाव से अमित की बातें सुनतीं।

स्कूल में अब तक अमित के कई दोस्त बन चुके थे। वे साथ-साथ बैठते हैं। लंच साथ ही बैठकर करते हैं। एक दिन अमित के दोस्त दिनेश ने कहा, 'अमित आज लंच में तुम क्या लाए हो?'

अमित ने उत्साह से कहा, 'हरे प्याज की सब्जी और परांठे।'

'अमित! तुम रोज-रोज कोई हरी सब्जी क्यों लाते हो? मुझे देखो, मैं रोज टेस्टी लंच लाता हूं। कभी सैंडविच तो कभी केक तो कभी नूडल्स।' हरेंद्र हंसते हुए बोला।

'हां मुझे भी नूडल्स और चाऊमिन बहुत पसंद हैं। मेरी मम्मी मुझे नूडल्स हफ्ते में सिर्फ एक दिन देती हैं।' वैष्णवी ने भी चहककर कहा।

अमित सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। लंच करते हुए वह सोच रहा था कि सच में सबकी मम्मियां कितनी अच्छी हैं। उनकी पसंद का खाना देती हैं। मेरी मम्मी तो हर दिन सब्जी- परांठा दे देती हैं।'

उस दिन स्कूल से घर लौटकर अमित मम्मी से बोला, 'मम्मी! मेरे सारे दोस्त रोज टेस्टी खाना लाते हैं। आप भी मुझे लंच में टेस्टी खाना दिया करें।'

'क्या आज का खाना टेस्टी नहीं था?' मम्मी ने आश्चर्य से पूछा।

'टेस्टी खाने का मतलब होता है सैंडविच, नूडल्स, केक और ब्रेड रोल। मेरे दोस्त रोज टेस्टी खाना लाते हैं।' अमित कुछ नाराजगी के भाव से बोला।

मम्मी को अब सारी बात समझ आ गई। उन्होंने अमित को प्यार से समझाया, 'हमेशा ज्यादा टेस्टी खाना हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, बेटा।'

अमित ने मम्मी की एक न सुनी, अगले दिन लंच में नूडल्स ले जाने की जिद पकड़ ली। मम्मी को उसकी जिद पूरी करनी पड़ी।

दो दिन बाद ही टीचर ने 'हेल्दी फूड्स' लेसन पढ़ाना शुरू किया। टीचर ने अच्छी सेहत के लिए हरी सब्जियों की उपयोगिता को विस्तार से बताया। यह भी बताया कि बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इससे बच्चों में ओवरवेट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेसन खत्म कर टीचर ने बच्चों से पूछा, 'लंच में हरी सब्जियां डेली कौन-कौन लाता है? क्लास में अमित को छोड़कर सभी बच्चों के हाथ नीचे थे। टीचर ने अमित को शाबाशी दी और बोलीं, 'पौष्टिक खाना खाने वाले बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। उनका दिमाग भी तेज रहता है।'

टीचर ने अमित के लिए ताली भी बजवाई। उसे बहुत अच्छा लगा।

अब अमित को टीचर की बात अच्छे से समझ आ गई थी। यह बात भी समझ में आ गई थी कि मम्मी उसे लंच में रोज-रोज सब्जी क्यों देती हैं। घर आकर अमित ने मम्मी से कहा, 'मम्मी, कल से मुझे लंच में हमेशा हरी सब्जियों से बना पौष्टिक खाना ही देना।' अमित ने क्लास में हुए पूरी घटना भी मम्मी को बताई।

अमित की बातें सुनकर मम्मी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। *

कविता

सृष्टि पांडेय

फूलों की रानी

फूलों की रानी! बतलाओ,
इतने रंग कहां से लाईं?
फूल-फूल पर करतब वाले,
सारे ढंग कहां से लाईं?
क्या चिंटू की पिचकारी से
ये छीटें तुमने डलवाए?
या फिर किसी पेंटर से कह,
तुमने पंख खूब सजवाए?
पंख सजीले सुंदर पाकर,
कभी नहीं तुम इतराती हो।
कली-कली पर, फूल-फूल पर,
झूल-झूल कर इठलाती हो।
खुद मीठा रस पीती लेकिन,
बच्चों को पत्तियां खिलातीं।
जी करता है, तुम्हें पकड़ लूं,
लेकिन हाथ कहां तुम आतीं!

रंग भरो-135

रंग भरो-135 में दिए गए चित्र को तुम लोगों ने बहुत अच्छे से रंगकर हमें भेजा। उनमें से चुना गया सबसे अच्छा चित्र हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं। उसे रंगकर भेजने वाले बच्चे के चित्र के साथ कुछ अन्य बच्चों के नाम और चित्र भी प्रकाशित कर रहे हैं।



देव्यांश, भिलाई

पूरब, राजनांदगांव

लक्ष्य, रायपुर

राजवंश, रायपुर

अंशिका, भिलाई

सौम्य, बालोद

इनके भी चित्र रहे प्रशंसनीय

पूजा-रायपुर, मुस्कान-बिलासपुर, रोहित-रोहतक, उषा-विदिशा, विक्की-जबलपुर, रमेश-दिल्ली, यशिका-भोपाल, दिनेश-दुर्ग, कविता-धमतरी, गुनगुन-जांजगीर, धर्मेंद्र-हिसार, खुशी-कटनी, चंचल-दिल्ली, लोकेश-कांकेर, जतिन-भिवानी, दीपू-कोरबा

रंग भरो 136

बच्चों, यहां पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें स्पेस सूट पहने एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर दिखाई दे रहा है। इस चित्र को मनचाहे प्यारे रंगों से रंगकर हमें भेजो। जिस बच्चे का चित्र सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे हम **बालभूमि** में प्रकाशित करेंगे। चित्र के साथ अपनी फोटो, अपना और शहर का नाम हमें इस पते पर भेजो- संपादक-फीचर, हरिभूमि कार्यालय, 129, ट्रांसपोर्ट सेंटर, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110035 या ई-मेल आईडी balbhoomihb@gmail.com पर मेल करो।



शब्द ज्ञान / उषा सोमानी

बच्चों, यहां प्रत्येक पंक्ति में अधूरा मुहावरा लिखा है। तुम्हें रिक्त स्थान में ऐसा शब्द भरना है, जिससे मुहावरा पूरा हो जाए।

1. कनिष्क जब नानी के घर से छुट्टियां मनाकर आया और दोस्तों के पास गार्डन गया तो सभी ने उससे कहा, 'तुम तो . . . . . . .का चांद हो गए हो।'
2. सुयश से उसकी दादी कहती हैं, 'तुम तो सभी बच्चों में चांद का . . . . . . हो।' . . .
3. मोहित को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वह जब-जब छुट्टियों में आता तो उसके दोस्त कहते, 'आजकल तुम तो . . . . . .का चांद हो गए हो।'
4. कार्तिक गप लगाने में माहिर था। उसके दोस्त कहते, 'यदि अनजान व्यक्ति तुम्हारी बातें सुनें तो वह यही समझेंगे कि तुम चांद से तारे . . . . . .लाए हो।'
5. श्वेता के प्रतियोगिता जीतने पर उसे बधाई देते हुए उसके मित्रों ने कहा, 'अभी तुम्हारे भाग्य का चांद . . . . . .हुआ है।'

उत्तर: 1-ईद, 2-टुकड़ा, 3-ईद, 4-तोड़, 5-चमका